

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 20] नई दिल्ली, शनिवार, मई 20—मई 26, 2017 (वैशाख 30, 1939)

No. 20] NEW DELHI, SATURDAY, MAY 20—MAY 26, 2017 (VAISHAKHA 30, 1939)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 2

[PART I—SECTION 2]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leaves etc. of Govt. Officers issued by the Ministries of the Govt. of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

प्रधान मंत्री कार्यालय

नई दिल्ली—110011, दिनांक 28 अप्रैल 2017

सं. ए.38013/1/2016-पीएमई—अधिवार्षिता की आयु पूरी होने के फलस्वरूप इस कार्यालय में केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी श्री ब्रह्मू राम दिनांक 30 अप्रैल, 2017 (अपराहन) से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

ए. के. दास, अवर सचिव

राज्य सभा सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 10 अप्रैल 2017

सं. आरएस./42/5/2017/17—कार्मिक—राज्य सभा सचिवालय में स्वस्थाने आधार पर निजी सचिव श्री दीपक कुमार को राज्य सभा के माननीय सभापति के वैयक्तिक स्टाफ में निजी सचिव के रूप में वेतन मैट्रिक्स के लवल 10 (पूर्व संशोधित वेतनमान 15,600—39,100/— रु. के वेतन बैंड 3 + 5,400/— रु. के ग्रेड वेतन के समतुल्य) में 1 अप्रैल, 2017 के पूर्वाहन से आगामी आदेशों तक सह-पदावसान और प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्त किया जाता है।

2. श्री दीपक कुमार की नियुक्ति राज्य सभा के माननीय सभापति के विवेकाधीन है और उनके कार्यकाल के समापन के साथ ही समाप्त हो जाएगी।

एस. रंगराजन, संयुक्त निदेशक

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 11 अप्रैल 2017

सं. एफ 23/02/2017/जी एन-8227/ए एन-I—अध्यक्ष महोदया, श्री डी. एस. मल्हा, निदेशक को 11 अप्रैल, 2017 से अगले आदेश तक पे मैट्रिक्स (अस्थायी) [37400-67000 रुपये (पी बी-4) + ग्रेड पे 10000 रुपये (संशोधन पूर्व)] के स्तर 14 में संयुक्त सचिव के ग्रेड में नियुक्त करती हैं।

पी. सी. कौल, संयुक्त सचिव

नई दिल्ली-110001, दिनांक 6 अप्रैल 2017

सं. पी एफ 1774-आर (3)/जी एन-8213/ए एन-I/2017—अध्यक्ष महोदया, निम्नलिखित सुरक्षा अधिकारियों (तकनीकी) को 05 अप्रैल, 2017 से अगले आदेश तक पे मैट्रिक्स (अस्थायी) [15600-39100 रुपये (पी बी-3) + ग्रेड पे 6600 रुपये (संशोधन पूर्व)] के स्तर 11 में सहायक निदेशक (तकनीकी) के ग्रेड में नीचे दर्शाए गए क्रम में नियुक्त करती हैं:-

1. श्री पी. एस. रावत
2. श्री प्रद्युमन सिंह

2. सहायक निदेशक (तकनीकी) के ग्रेड में उनकी नियुक्ति माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में के. डी. भारद्वाज एवं अन्य बनाम भारत संघ एव अन्य' शीर्षक के अंतर्गत विचाराधीन रिट याचिका संख्या डब्ल्यूपी(सी) 7559/2011 के परिणाम के अधीन है।

अर्चना पठानिया, उप सचिव

सं. पी एफ 2455-आर (3)/जी एन-8214/ए एन-I/2017—अध्यक्ष महोदया, श्री अमित अनुराग, संसदीय भाषांतरकार ग्रेड-II को 05 अप्रैल, 2017 से अगले आदेश तक पे मैट्रिक्स (अस्थायी) [15600-39100 रुपये (पीबी-3)+ ग्रेड पे 6600 रुपये (संशोधन पूर्व)] के स्तर 11 में संसदीय भाषांतरकार ग्रेड-I के ग्रेड में नियुक्त करती हैं।

अर्चना पठानिया, उप सचिव

सं. पीएफ-810-आर (7)/जीएन-8215/एएन-1/2017—दिनांक 25 जनवरी, 1973 के आर एंड सी एस आदेश सं. पीजीएफ-104/73 और दिनांक 01 जनवरी, 1979 के आदेश सं. पीजीएफ-201/79 के द्वारा अंगीकृत और समय-समय पर यथासंशोधित सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 48 के तहत सक्षम प्राधिकारी ने 15600-39100 (पीबी-3) + ग्रेड पे 8000 रुपये (संशोधन पूर्व) के पे बैंड में कार्यरत श्रीमती इंदु गोयल, अपर निदेशक (लार्डिस) की सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के अनुरोध को 06 अप्रैल, 2017 से स्वीकार कर लिया है।

2. तदनुसार, श्रीमती इंदु गोयल 06 अप्रैल, 2017 के अपराह्न से स्वैच्छिक रूप से सेवानिवृत्त हो गई हैं।

अर्चना पठानिया, उप सचिव

सं. एफ-23/05/2017/जीएन-8216/एएन-1—अध्यक्ष महोदया, श्री हिमाद्रि नाथ पंडित, संयुक्त निदेशक (सुरक्षा) को 05 अप्रैल, 2017 से अगले आदेश तक 15600-39100 रुपये (पीबी-3)+ ग्रेड पे 8000 रुपये (संशोधन पूर्व) के पे बैंड में अपर निदेशक (सुरक्षा) के ग्रेड में नियुक्त करती हैं।

अर्चना पठानिया, उप सचिव

सं. एफ 23/05/2017/जी एन-8217/ए एन-1—अध्यक्ष महोदया, निम्नलिखित सहायक निदेशकों (सुरक्षा) को 05 अप्रैल, 2017 से अगले आदेश तक पे मैट्रिक्स (अस्थायी) [15600-39100 रुपये (पी बी-3) + ग्रेड पे 7600 रुपये (संशोधन पूर्व)] के स्तर 12 में संयुक्त निदेशक (सुरक्षा) के ग्रेड में नीचे दर्शाए गए क्रम में नियुक्त करती हैं:-

1. श्री रवि गुप्ता
2. श्री राजीव शर्मा-I
3. श्री दयानंद

अर्चना पठानिया, उप सचिव

सं. एफ/23/05/2017/जीएन-8218/एएन-1—अध्यक्ष महोदया, श्री आजम मियां, सहायक निदेशक, (सुरक्षा-टीएसपी) को 5 अप्रैल, 2017 से अगले आदेश तक पे मैट्रिक्स (अस्थायी) [15600-39100 रुपये (पीबी-3)+ ग्रेड पे 6600 रुपये (संशोधन पूर्व)] के स्तर 11 में सहायक निदेशक (सुरक्षा) के ग्रेड में नियुक्त करती हैं ।

अर्चना पठानिया, उप सचिव

सं. एफ/23/05/2017/जीएन-8219/एएन-1—अध्यक्ष महोदया, निम्नलिखित सुरक्षा अधिकारियों को 5 अप्रैल, 2017 से अगले आदेश तक पे मैट्रिक्स (अस्थायी) [15600-39100 रुपये (पीबी-3)+ ग्रेड पे 6600 रुपये (संशोधन पूर्व)] के स्तर 11 में सहायक निदेशक (सुरक्षा) के ग्रेड में नीचे दर्शाए गए क्रम में नियुक्त करती हैं:-

1. श्री अभय कुमार
2. श्री राजउल करीम पुरनावी
3. श्री भगवती प्रसाद रतूरी

अर्चना पठानिया, उप सचिव

सं. एफ/23/05/2017/जीएन-8220/एएन-1—अध्यक्ष महोदया, श्रीमती दीपिका भल्ला, सुरक्षा अधिकारी को 5 अप्रैल, 2017 से अगले आदेश तक पे मैट्रिक्स (अस्थायी) [15600-39100 रुपये (पीबी-3)+ ग्रेड पे 6600 रुपये (संशोधन पूर्व)] के स्तर 11 में सहायक निदेशक (सुरक्षा) के ग्रेड में तदर्थ आधार पर नियुक्त करती हैं ।

अर्चना पठानिया, उप सचिव

सं. पी एफ.881-आर(3)/जीएन-8221/एएन-1/2017—अध्यक्ष महोदया, श्री आर. राज कुमार बालासुब्रह्मनियन संसदीय भाषांतरकार, ग्रेड-II को 5 अप्रैल, 2017 से अगले आदेश तक पे मैट्रिक्स (अस्थायी) [15600-39100 रुपये (पीबी-3)+ ग्रेड पे 6600 रुपये (संशोधन पूर्व)] के स्तर 11 में संसदीय भाषांतरकार, ग्रेड-I के ग्रेड में तदर्थ आधार पर नियुक्त करती हैं ।

अर्चना पठानिया, उप सचिव

सं. एफ.23/07/2017/जीएन-8222/एएन-1—अध्यक्ष महोदया, श्रीमती गजिन्दर पाल कौर, अपर निदेशक (पी एस एस) को 5 अप्रैल, 2017 से अगले आदेश तक पे मैट्रिक्स (अस्थायी) [37400-67000 रुपये (पीबी-4)+ ग्रेड पे 8700 रुपये (संशोधन पूर्व)] के स्तर 13 में निदेशक (पी एस एस) के ग्रेड में नियुक्त करती हैं ।

अर्चना पठानिया, उप सचिव

सं. एफ.23/07/2017/जीएन-8223/एएन-1—अध्यक्ष महोदया, श्रीमती सविता कक्कड़, संयुक्त निदेशक (पी एस एस) को 5 अप्रैल, 2017 से अगले आदेश तक पे बैंड 15600-39100 रुपये (पीबी-3)+ ग्रेड पे 8000 रुपये (संशोधन पूर्व) में अपर निदेशक (पी एस एस) के ग्रेड में नियुक्त करती हैं ।

अर्चना पठानिया, उप सचिव

सं. एफ 23/07/2017/जी एन-8224/ए एन-I—अध्यक्ष महोदया, श्री एम. एस. अनंतन, वरिष्ठ निजी सचिव को 5 अप्रैल, 2017 से अगले आदेश तक पे मैट्रिक्स (अस्थायी) [15600-39100 रुपये (पी बी-3) + ग्रेड पे 7600 रुपये (संशोधन पूर्व)] के स्तर 12 में संयुक्त निदेशक (पीएसएस) के ग्रेड में नियुक्त करती हैं ।

अर्चना पठानिया, उप सचिव

सं. एफ 23/07/2017/जी एन-8225/ए एन-I—अध्यक्ष महोदया, श्रीमती ईशा चौधरी, निजी सचिव को 5 अप्रैल, 2017 से अगले आदेश तक पे मैट्रिक्स (अस्थायी) [15600-39100 रुपये (पी बी-3) + ग्रेड पे 6600 रुपये (संशोधन पूर्व)] के स्तर 11 में वरिष्ठ निजी सचिव के ग्रेड में नियुक्त करती हैं ।

अर्चना पठानिया, उप सचिव

दिनांक 11 अप्रैल 2017

सं. एफ 23/03/2017/जी एन-8228/ए एन-I—अध्यक्ष महोदया, श्री श्रीनिवासुलु गुंडा, अपर निदेशक को 11 अप्रैल, 2017 से अगले आदेश तक पे मैट्रिक्स (अस्थायी) [37400-67000 रुपये (पी बी-4) + ग्रेड पे 8700 रुपये (संशोधन पूर्व)] के स्तर 13 में निदेशक के ग्रेड में नियुक्त करती हैं ।

अर्चना पठानिया, उप सचिव

सं. एफ 23/03/2017/जी एन-8229/ए एन-I—अध्यक्ष महोदया, श्री महेश्वर, उप सचिव को 11 अप्रैल, 2017 से अगले आदेश तक पे मैट्रिक्स (अस्थायी) [15600-39100 रुपये (पी बी-3) + ग्रेड पे 8000 रुपये (संशोधन पूर्व)] में अपर निदेशक के ग्रेड में नियुक्त करती हैं ।

अर्चना पठानिया, उप सचिव

दिनांक 12 अप्रैल 2017

सं. एफ.15/10/2014/जी एन-8230/ए एन-I—श्री उज्जवल पंत, वरिष्ठ कार्यकारी/विधायी/समिति/प्रोटोकॉल सहायक को 12 अप्रैल, 2017 से या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, माननीय उपाध्यक्ष, लोक सभा (डॉ. एम. तम्बि दुरै) के निजी स्टॉफ में पे मैट्रिक्स (अस्थायी) [15600-39100 रुपये (पी बी-3) + ग्रेड पे 6600 रुपये (संशोधन पूर्व)] के स्तर 11 में वरिष्ठ निजी सचिव के रूप में प्रतिनियुक्ति और सह-विस्तारी आधार पर नियुक्त किया जाता है ।

2. माननीय उपाध्यक्ष, लोक सभा के निजी स्टॉफ में उनकी नियुक्ति सेवाधृति आधार पर और संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना संबंधी समिति के सभापति के रूप में माननीय उपाध्यक्ष, लोक सभा (डॉ. एम. तम्बि दुरै) के प्रसादपर्यंत अथवा उनके कार्यकाल के साथ सह-विस्तारी आधार पर होगी ।

अर्चना पठानिया, उप सचिव

दिनांक 17 अप्रैल 2017

सं. एफ 41/09/2017/जी एन-8232/ए एन-I—अध्यक्ष महोदया, पे मैट्रिक्स (अस्थायी) [15600-39100 रुपये (पी बी-3) + ग्रेड पे 7600 रुपये (संशोधन पूर्व)] के स्तर 12 में कार्यरत, निम्नलिखित उप सचिवों को 18 मार्च, 2017 से समयमान स्थापन योजना-2011 के अंतर्गत अपर निदेशक के पद के साथ संबद्ध 15600-39100 रुपये (पी बी-3) + ग्रेड पे 8000 रुपये (संशोधन पूर्व) के पे बैंड में रखती हैं:-

1. श्री आर. सी. शर्मा
2. श्री संजय सेठी

अर्चना पठानिया, उप सचिव

सं. एफ 41/09/2017/जी एन-8233/ए एन-I—अध्यक्ष महोदया, पे मैट्रिक्स (अस्थायी) [15600-39100 रुपये (पी बी-3) + ग्रेड पे 6600 रुपये (संशोधन पूर्व)] के स्तर 11 में कार्यरत, निम्नलिखित अवर सचिवों को 18 मार्च, 2017 से समयमान स्थापन योजना-2011 के अंतर्गत उप-सचिव के पद के साथ संबद्ध पे मैट्रिक्स (अस्थायी) [15600-39100 रुपये (पी बी-3) + ग्रेड पे 7600 रुपये (संशोधन पूर्व)] के स्तर 12 में रखती हैं

1. श्री रमेश चन्द अहेरिया
2. श्री राहुल सिंह
3. श्रीमती नीना जुनेजा

अर्चना पठानिया, उप सचिव

दिनांक 18 अप्रैल 2017

सं. एफ 41/09/2017/जी एन-8234/ए एन-I—अध्यक्ष महोदया, 15600-39100 रुपये (पी बी-3) + ग्रेड पे 8000 रुपये (संशोधन पूर्व) के पे बैंड में कार्यरत, निम्नलिखित अपर निदेशकों (लार्डिस) को 16 अप्रैल, 2017 से समयमान स्थापन योजना-2011 के अंतर्गत निदेशक (लार्डिस) के पद के साथ संबद्ध पे मैट्रिक्स (अस्थायी) [37400-67000 रुपये (पी बी-4) + ग्रेड पे 8700 रुपये (संशोधन पूर्व)] के स्तर 13 में रखती हैं:-

क्रम सं.	नाम
1.	डॉ. जयदेव साहू
2.	श्री नौशाद आलम
3.	श्री बी. फणि कुमार

अर्चना पठानिया, उप सचिव

नई दिल्ली-110001, दिनांक 7 अप्रैल 2017

सं. पी एफ-2789-आर(3)/जीएन-8226/एएन-I/2017—निदेशक (सुरक्षा) के पद हेतु चयन होने के परिणामस्वरूप, अध्यक्ष महोदया, श्री रवीन्द्र पाल सिंह मलिक, उप महानिरीक्षक, सीमा सुरक्षा बल, को 31.03.2017 (अपराहन) से 31.03.2020 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, पे मैट्रिक्स (अस्थायी) [37400-67000 रुपये (पी बी-4) + ग्रेड पे 8900 रुपये (संशोधन पूर्व)] के स्तर 13क में लोक सभा सचिवालय में निदेशक (सुरक्षा) के रूप में प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्त करती हैं।

2. उनकी प्रतिनियुक्ति के निबंधन और शर्तें लोक सभा सचिवालय के दिनांक 4 फरवरी, 2011 के भर्ती और सेवा शर्तें आदेश सं. विविध 87/2011 के द्वारा यथाअंगीकृत और समय-समय पर यथा संशोधित कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के का.जा. सं. 6/8/2009-स्था. (वेतन-दो) दिनांक 17 जून, 2010 के प्रावधानों के अनुसार विनियमित होंगी।

संजय सेठी, उप सचिव

दिनांक 17 अप्रैल 2017

सं. पी एफ-2789-आर(3)/जीएन-8231/एएन-I/2017—निदेशक (सुरक्षा) के पद हेतु चयन होने के परिणामस्वरूप, अध्यक्ष महोदया, श्री भुवन चन्द्र जोशी, उप-महानिरीक्षक, सीमा सुरक्षा बल को 11.04.2017 से 10.04.2020 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, पे मैट्रिक्स (अस्थायी) [37400-67000 रुपये (पी बी-4) + ग्रेड पे 8900 रुपये (संशोधन पूर्व)] के स्तर 13क में लोक सभा सचिवालय में निदेशक (सुरक्षा) के रूप में प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्त करती हैं।

2. उनकी प्रतिनियुक्ति के निबंधन और शर्तें लोक सभा सचिवालय के दिनांक 4 फरवरी, 2011 के भर्ती और सेवा शर्तें आदेश सं. विविध 87/2011 द्वारा यथा अंगीकृत और समय-समय पर यथा संशोधित कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के का.जा. सं. 6/8/2009-स्था. (वेतन-दो) दिनांक 17 जून, 2010 के प्रावधानों के अनुसार विनियमित होंगी।

संजय सेठी, उप सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 2 मई 2017

सं. 4(1)—पीयू/2017—लोक सभा और राज्य सभा के निम्नलिखित सदस्यों को सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति, जिसका कार्यकाल 01 मई, 2017 को आरंभ होगा और 30 अप्रैल, 2018 को समाप्त होगा, के सदस्य के रूप में कार्य करने हेतु चुना गया है :—

लोक सभा

1. श्री एल. के. आडवाणी
2. श्री रमेश बैस
3. श्री जी. हरि
4. श्री रवीन्द्र कुमार जेना
5. डॉ. कंभमपति हरिबाबू
6. श्री क्रिष्ण निम्मला
7. श्री अजय निषाद
8. श्री शान्ता कुमार
9. श्री बी. विनोद कुमार
10. श्री प्रह्लाद सिंह पटेल
11. प्रो. सौगत राय
12. एडवोकेट नरेन्द्र केशव सावईकर
13. श्री रवनीत सिंह
14. श्री सुशील कुमार सिंह
15. श्री रामेश्वर तेली

राज्य सभा

16. श्री नरेन्द्र बुढानिया
17. श्री नरेश गुजराल
18. श्री शमशेर सिंह मन्हास
19. श्री प्रफुल्ल पटेल
20. श्री ए. के. सेल्वाराज
21. श्री तपन कुमार सेन
22. श्री रामचन्द्र प्रसाद सिंह

लोक सभा की माननीय अध्यक्ष ने श्री शान्ता कुमार, संसद सदस्य को समिति (2017-18) का सभापति नियुक्त किया है।

जी. सी. प्रसाद, उप सचिव

राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् सचिवालय

नई दिल्ली—110001, दिनांक 5 मई 2017

सं. ए-12024/03/2017—प्रशासन—राष्ट्रपति, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् सचिवालय में श्री रोहित सिंह को वेतन मैट्रिक्स लेवल-10 (सातवां केन्द्रीय वेतन आयोग) तदनुसारी वेतन बैंड-3 के वेतनमान—15600-39100/- रु. + ग्रेड वेतन 5400/- रु. में संविदा आधार पर दिनांक 01 मई, 2017 के पूर्वानुमान से तीन वर्ष की अवधि के लिए (एक वर्ष की परीक्षा अवधि सहित) जिसे पाँच वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, या अगले आदेशों के जारी होने तक, जो भी पहले हो, सहायक निदेशक के पद पर सहर्ष नियुक्त करते हैं।

आर. के. जैन, उप सचिव

अंतरिक्ष विभाग

बेंगलूरु-560094, दिनांक 3 मई 2017

सं.ए.22012/4/2017-अनु.1—राष्ट्रपति, श्री टी कृष्णकुमार, को दिनांक 23 दिसंबर, 2016 के पूर्वाह्न से तथा अगले आदेश तक, इनमें से जो भी पहले हो, अंतरिक्ष विभाग, बेंगलूरु में अवर सचिव (कार्मिक), वेतन मैट्रिक्स में स्तर-11, के रूप में नियुक्त करते हैं।

के वी लक्ष्मण कुमार, विशेष कार्य अधिकारी

बेंगलूरु-560094, दिनांक 3 मई 2017

सं.ए.22012/3/2017-अनु.1—राष्ट्रपति, श्री के वी लक्ष्मण कुमार, को दिनांक 13 दिसंबर, 2016 के पूर्वाह्न से तथा अगले आदेश तक, इनमें से जो भी पहले हो, अंतरिक्ष विभाग, बेंगलूरु में विशेष कार्य अधिकारी, वेतन मैट्रिक्स में स्तर-13, के रूप में नियुक्त करते हैं।

टी कृष्णकुमार, अवर सचिव

सं.ए.22012/5/2017-अनु.1—राष्ट्रपति, श्री शारिक आलम, को दिनांक 5 जनवरी, 2017 के पूर्वाह्न से तथा अगले आदेश तक, इनमें से जो भी पहले हो, अंतरिक्ष विभाग, बेंगलूरु में अवर सचिव (सतर्कता व विधि), वेतन मैट्रिक्स में स्तर-11, के रूप में नियुक्त करते हैं।

टी कृष्णकुमार, अवर सचिव

नीति आयोग

नई दिल्ली, दिनांक 27 अप्रैल 2017

सं.ए.12025/15/2012-प्रशा.11—संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिश पर, सक्षम प्राधिकारी, योजना आयोग (अब नीति आयोग) ने वेंकट नारायण अजीना को वेतन बैंड:3 15600-39100/- रु. + ग्रेड वेतन 5400/- रु. में दिनांक 10.12.2012 (पूर्वाह्न) से सीधी भर्ती आधार पर योजना आयोग (अब नीति आयोग) में पूर्णतया अस्थायी आधार अनुसंधान अधिकारी (जलापूर्ति) के रूप में नियुक्त करते हैं। उन्होंने अपनी परीक्षा 10.12.2013 को पूरी कर ली है।

सुनील कुमार, अवर सचिव

विधि और न्याय मंत्रालय

(न्याय विभाग)

नई दिल्ली-110011, दिनांक 10 मार्च 2017

सं. के.13016/01/2017-यू.एस.11—राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केरल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश श्री तोट्टिलि भास्करन नायर राधाकृष्णन को अपना पदभार ग्रहण करने की तारीख से छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करते हैं।

राजिन्द्र कश्यप, संयुक्त सचिव

सं. के.13022/01/2017-यू.एस.11—राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश श्री प्रदीप कुमार महान्ति को अपना पदभार ग्रहण करने की तारीख से झारखंड उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करते हैं।

राजिन्द्र कश्यप, संयुक्त सचिव

सं. के.13024/01/2017-यू.एस.II—राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश श्री नवनीति प्रसाद सिंह को अपना पदभार ग्रहण करने की तारीख से केरल उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करते हैं।

राजिन्द्र कश्यप, संयुक्त सचिव

सं. के.13025/01/2017-यू.एस.II—राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश श्री हेमन्त गुप्ता को अपना पदभार ग्रहण करने की तारीख से मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करते हैं।

राजिन्द्र कश्यप, संयुक्त सचिव

सं. के.13028/01/2017-यू.एस.II—राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश श्री राजेन्द्र मेनन को अपना पदभार ग्रहण करने की तारीख से पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करते हैं।

राजिन्द्र कश्यप, संयुक्त सचिव

दिनांक 24 मार्च 2017

सं. के. 13021/01/2017-यू.एस.II—राष्ट्रपति, जम्मू और कश्मीर के संविधान की धारा 95 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री बदर दुर्रज़ अहमद को पदभार ग्रहण करने की तारीख से जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करते हैं।

राजिन्द्र कश्यप, संयुक्त सचिव

सं. के.13030/01/2017-यू.एस.II—राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश श्री प्रदीप नन्दाजोग को अपना पदभार ग्रहण करने की तारीख से राजस्थान उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करते हैं।

राजिन्द्र कश्यप, संयुक्त सचिव

दिनांक 31 मार्च 2017

सं. के.13022/04/2016-यू.एस.II—राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, झारखंड उच्च न्यायालय के अपर न्यायाधीश श्री रत्नाकर भेंगरा को अपना पदभार ग्रहण करने की तारीख से झारखंड उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त करते हैं।

राजिन्द्र कश्यप, संयुक्त सचिव

सं. के.13024/03/2016-यू.एस.I—राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केरल उच्च न्यायालय के अपर न्यायाधीश सर्वश्री (i) सूनिल तोमस (ii) बाजी पौल चाली (iii) श्रीमती अन् शिवरामन (iv) राजा विजयारागवन वलसला (v) भास्करन पिल्लै सुधीन्द्र कुमार (vi) केलोट फुतनपुरा ज्योतीन्द्रनाथ और (vii) श्रीमती मेरी जोसफ, को अपना-अपना पदभार ग्रहण करने की तारीख से केरल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त करते हैं।

राजिन्द्र कश्यप, संयुक्त सचिव

सं. के.13025/01/2015-यू.एस.॥—राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के अपर न्यायाधीश श्री आलोक वर्मा को अपना पदभार ग्रहण करने की तारीख से मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त करते हैं।

राजिन्द्र कश्यप, संयुक्त सचिव

सं. के.13026/04/2017-यू.एस.॥—राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कुमारी ईन्दिरा बनर्जी को अपना पदभार ग्रहण करने की तारीख से मद्रास उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करते हैं।

राजिन्द्र कश्यप, संयुक्त सचिव

सं. के.13027/02/2016-यू.एस.॥—राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उड़ीसा उच्च न्यायालय के अपर न्यायाधीश सर्वश्री (i) कृष्ण राम महापात्र (ii) यतोन्द्र प्रसाद दास (iii) डॉ. दुर्गा प्रसन्न चौधुरी को अपना-अपना पदभार ग्रहण करने की तारीख से उड़ीसा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त करते हैं।

राजिन्द्र कश्यप, संयुक्त सचिव

नई दिल्ली-110011, दिनांक 14 मार्च 2017

सं. के.11019/01(21)/2017-यू.एस.॥—राष्ट्रपति, जम्मू और कश्मीर के संविधान की धारा 100 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री नारायणन नाडार पाल वसन्दकुमार के सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप, जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री रामलिंगम सुधाकर को 15 मार्च, 2017 से उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए नियुक्त करते हैं।

एस.सी. बर्मा, संयुक्त सचिव

दिनांक 15 मार्च 2017

सं. के. 11019/01/2017-यू.एस.॥—राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 223 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, न्यायमूर्ति श्री राजेन्द्र मेनन के पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त होने के फलस्वरूप, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश का पदभार छोड़ने की तारीख से मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री संजय कुमार सेठ को उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के कर्तव्यों का निर्वहन करने हेतु नियुक्त करते हैं।

एस.सी. बर्मा, संयुक्त सचिव

सं. के. 11019/01/2017-यू.एस.॥—राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 223 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, न्यायमूर्ति श्री तोट्टलिल भास्करन नायर राधाकृष्णन के छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त होने के फलस्वरूप, केरल उच्च न्यायालय के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश का पदभार छोड़ने की तारीख से केरल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश श्री आन्टोनी डोमिनिक को उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के कर्तव्यों का निर्वहन करने हेतु नियुक्त करते हैं।

एस.सी. बर्मा, संयुक्त सचिव

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 3 मई 2017

सं. आई-14011/2/2017-आईपीएस-1(I)—भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के विनियम 7 के उप-विनियम (3) में निहित उपबंधों का प्रयोग करते हुए संघ लोक सेवा आयोग ने दिनांक 01.05.2017 को चयन समिति की दिनांक 10.04.2017 की बैठक में इसके द्वारा बनाई

गई 2016 की उस चयन सूची को अनुमोदित कर दिया है जिसमें भारतीय पुलिस सेवा में कुल 25 मौलिक रिक्तियों को भरे जाने हेतु उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों का नाम शामिल किया गया है :-

चयन सूची-2016

क्रम सं.	अधिकारियों के नाम (सर्व/श्री/श्रीमति)	जन्म तिथि
1.@	जय प्रकाश सिंह	25.06.1959
2.	शकील अहमद खान	01.06.1961
3.@	अमित मिश्रा	31.07.1963
4.	शैलेश कुमार यादव	28.02.1965
5.	मिर्जा मंजर बेग	01.07.1963
6.	राहुल राज	01.07.1965
7.	शफीक अहमद	01.06.1964
8.	राजेश कुमार	19.01.1962
9.	राधे श्याम	14.04.1965
10.	डा. धर्म वीर सिंह	08.01.1965
11.	कल्पना सक्सेना	21.04.1968
12.	सुरेश्वर	10.10.1966
13.	अशोक कुमार	01.06.1967
14.	राधे मोहन भारद्वाज	01.10.1962
15.	पदीप गुप्ता	12.10.1966
16.	ओम प्रकाश	14.02.1960
17.	स्वामी नाथ	24.07.1962
18.	डा. ओम प्रकाश सिंह	01.10.1964
19.	डा. अनिल कुमार मिश्रा	24.10.1961
20.	जय प्रकाश	01.07.1963
21.	शकीलुज्जामा	01.01.1962
22.	रामजी सिंह यादव	01.10.1965
23.	संजय सिंह	12.02.1965
24.	राम किशुन	01.05.1968
25.	राज कमल यादव	06.01.1964

@क्रम संख्या 1, एवं 3 पर दिये गये नामों को उनके विरुद्ध लंबित आपराधिक मामलों के निपटान के अध्यधीन सूची में अनन्तिम रूप से शामिल किया गया है।

कुलदीप कुमार, अनुभाग अधिकारी (आई.पी.एस.1)

सं. आई-14011/2/2017-आईपीएस-1(II)—राष्ट्रपति, भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के विनियम 9 के उप-विनियम (1) के साथ पठित भारतीय पुलिस सेवा (भर्ती) विनियम, 1954 के विनियम 9 के उप-विनियम (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा के निम्नलिखित सदस्यों को भारतीय पुलिस सेवा में परीक्षा पर नियुक्त करते हैं तथा उन्हें भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग) विनियम, 1954 के विनियम 5 के उप-विनियम (1) के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश संवर्ग प्रदान करते हैं :-

चयन सूची-2016

क्रम सं.	अधिकारियों के नाम (सर्व/श्री/श्रीमति)	जन्म तिथि
1.	शकील अहमद खान	01.06.1961
2.	शैलेश कुमार यादव	28.02.1965

क्रम सं.	अधिकारियों के नाम (सर्व/श्री/श्रीमति)	जन्म तिथि
3.	मिर्जा मंजर बेग	01.07.1963
4.	राहुल राज	01.07.1965
5.	शफीक अहमद	01.06.1964
6.	राजेश कुमार	19.01.1962
7.	राधे श्याम	14.04.1965
8.	डा. धर्म वीर सिंह	08.01.1965
9.	कल्पना सक्सेना	21.04.1968
10.	सुरेश्वर	10.10.1966
11.	अशोक कुमार	01.06.1967
12.	राधे मोहन भारद्वाज	01.10.1962
13.	पदीप गुप्ता	12.10.1966
14.	ओम प्रकाश	14.02.1960
15.	स्वामी नाथ	24.07.1962
16.	डा. ओम प्रकाश सिंह	01.10.1964
17.	डा. अनिल कुमार मिश्रा	24.10.1961
18.	जय प्रकाश	01.07.1963
19.	शकीलुज्जामा	01.01.1962
20.	रामजी सिंह यादव	01.10.1965
21.	संजय सिंह	12.02.1965
22.	राम किशुन	01.05.1968
23.	राज कमल यादव	06.01.1964

2. उपरोक्त अधिकारी भारतीय पुलिस सेवा (परिवीक्षा) विनियम, 1954, के तहत एक वर्ष के लिये परिवीक्षा पर रहेंगे और भारतीय पुलिस सेवा (परिवीक्षा) विनियम, 1954 के नियम 5 (4) में संशोधन दिनांक 10.05.2011 के तहत अधिकारियों को इंडक्शन प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा।

3. यह नियुक्तियाँ अधिसूचना के जारी होने की तिथि से प्रभावी होगी।

कुलदीप कुमार, अनुभाग अधिकारी (आई.पी.एस..1)

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 13 जनवरी 2017

सं.14015/17/2015-अ.भा.से.(I)-क—ओ.ए.सं. 2016 की 260/00205, 00388 और 00389 में माननीय कैट, कटक शाखा, कटक द्वारा जारी किए गए दिनांक 09.09.2016 के आदेश के अनुपालन में तथा इस विभाग की दिनांक 09.10.2015 की समसंख्यक

अधिसूचना के अधिक्रमण में और साथ ही, भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियमावली, 1955 के विनियम 9 (1) के साथ पठित भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 8(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति राज्य सरकार के परामर्श से उक्त विनियमावली के विनियम 5(1) के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित की गई राज्य सिविल सेवा श्रेणी के अंतर्गत आईएएस के उड़ीसा संवर्ग में पदोन्नति कोटा की रिक्तियों को भरने के लिए विनियम 5(5) के अंतर्गत 15.12.2016 को तैयार की गई तथा विनियम 7(2) के अंतर्गत 11.01.2017 को अनुमोदित की गई निम्नलिखित नामों को समाविष्ट करने वाली उड़ीसा के राज्य सिविल सेवा अधिकारियों की चयन सूची को पुनः अधिसूचित करते हैं:—

चयन सूची 2014 (1.1.2014 से 31.12.2014 के बीच हुई रिक्तियों के लिए)

क्र.सं.	अधिकारी का नाम (सर्वश्री/सुश्री)	जन्म तिथि
1.*	ध्रुव चरण पंचाभैया	19.07.1956
2.#	सुशील कुमार दास न. 3	10.01.1957
3.	दाशरथी सत्यपथी	03.01.1962
4.	प्रताप चंद्र दास-1	22.01.1960
5.	प्रफुल्ल चंद्र प्रधान-2	04.07.1961
6.	निर्मल चंद्र मिश्रा	05.07.1960
7.	मधुसूदन मिश्रा-1	27.01.1960
8.	अंजन कुमार मानिक	02.05.1961
9.*	बिजय चंद्र महापात्रा	17.01.1960
10.#	मनमोहन मिश्रा-2	08.11.1960
11.	बेनुधर बेहरा	03.06.1962
12.	पार्थ सारथी मिश्रा	21.06.1962
13.	लग्नजीत राय	13.08.1962
14.	रबीन्द्र कुमार मिश्रा	17.06.1961
15.	विभूति भूषण पटनायक	30.07.1960
16.	डॉ. त्रिबिक्रम प्रधान	23.04.1960
17.	प्रेमानंद कुंतिया	02.05.1962

* क्र.सं. 1 से और 9 पर दिए गए नामों को उनके विरुद्ध लंबित अनुशासनिक कार्यवाही तथा आपराधिक कार्यवाही के निपटान के अध्ययन इस सूची में शामिल किया है।

क्र.सं. 2 से और 10 पर दिए गए नामों को उनके विरुद्ध लंबित आपराधिक कार्यवाही के निपटान के अध्ययन इस सूची में शामिल किया है।

पंकज गंगवार, अवर सचिव

सं.14015/17/2015-अ.भा.से.(I)-ख—ओ.ए.सं. 2016 की 260/00205, 00388 और 00389 में माननीय कैट, कटक शाखा, कटक द्वारा जारी किए गए दिनांक 09.09.2016 के आदेश के अनुपालन में तथा इस विभाग की दिनांक 09.10.2015 की समसंख्यक अधिसूचना के अधिक्रमण में और साथ ही, भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियमावली, 1955 के विनियम 9 (1) तथा भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम 3 के साथ पठित भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 8(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति 2014 की चयन सूची के लिए, राज्य सरकार के परामर्श से

उक्त विनियमावली के विनियम 5(1) के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित रिक्तियों के लिए उड़ीसा संवर्ग राज्य सिविल सेवा के निम्नलिखित सदस्यों को भारतीय प्रशासनिक सेवा में अगले आदेश होने तक परीक्षा पर पुनः नियुक्त करते हैं तथा भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 5(1) के अंतर्गत उड़ीसा संवर्ग आबंटित करते हैं :—

चयन सूची 2015 (1.1.2015 से 31.12.2015 के बीच हुई रिक्तियों के लिए)

क्र.सं.	अधिकारी का नाम (सर्वश्री/सुश्री)	जन्म तिथि
1.	दाशरथी सत्यपथी	03.01.1962
2.	प्रताप चंद्र दास-1	22.01.1960
3.	प्रफुल्ल चंद्र प्रधान-2	04.07.1961
4.	निर्मल चंद्र मिश्रा	05.07.1960
5.	मधुसूदन मिश्रा-1	27.01.1960
6.	अंजन कुमार मानिक	02.05.1961
7.	बेनुधर बेहेरा	03.06.1962
8.	पार्थ सारथी मिश्रा	21.06.1962
9.	लग्नजीत राय	13.08.1962
10.	रबीन्द्र कुमार मिश्रा	17.06.1961
11.	विभूति भूषण पटनायक	30.07.1960
12.	डॉ. त्रिविक्रम प्रधान	23.04.1960
13.	प्रेमानंद कुंतिया	02.05.1962

पंकज गंगवार, अवर सचिव

दिनांक 12 अप्रैल 2016

सं. 14015/14/2017-अ.भा.से. (I)-क—राष्ट्रपति, भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियमावली, 1955 के विनियम 9(1) के साथ पठित भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 8(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार के परामर्श से उपर्युक्त विनियमावली के विनियम 5(1) के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित राज्य सिविल सेवा श्रेणी के अंतर्गत भारतीय प्रशासनिक सेवा के महाराष्ट्र संवर्ग की पदोन्नति कोटा की रिक्तियों को भरने के लिए विनियम 5(1) के अंतर्गत दिनांक 29.03.2017 को तैयार की गई और विनियम 7(2) के अंतर्गत दिनांक 07.04.2017 को अनुमोदित की गई महाराष्ट्र के राज्य सिविल सेवा अधिकारियों की निम्नलिखित नामों वाली सूची को अधिसूचित करते हैं :—

चयन सूची 2016 (1.1.2016 से 31.12.2016 के बीच हुई रिक्तियों के लिए)

क्र.सं.	अधिकारी का नाम (श्री/सर्वश्री)	जन्म तिथि
1	वी.वी. माने	13.04.1964
2	एम.एम. सूर्यवंशी	07.03.1966
3	आर. एच. ठाकरे	20.03.1965
4	जे.एस. पापालकर	29.12.1966
5	एस.डी. मंधारे	21.05.1971
6	एस.जी. कोलटे	27.10.1967

क्र.सं.	अधिकारी का नाम (श्री/सर्वश्री)	जन्म तिथि
7	आर.डी. नीवतकर	22.06.1965
8	ए.के. धाकने	15.07.1970
9	ए.ए. गुलहाने	14.11.1964
10	के. वी. जाधव	02.05.1964
11	जी.एम. बोडके	04.03.1965
12@	ए.डब्ल्यू. ककाडे	03.07.1967
13	सी.के. डांगे	29.12.1968

@ चयन सूची में क्रम संख्या-12 के सामने उल्लिखित नाम अनंतिम रूप से शामिल किया गया है और यह राज्य सरकार द्वारा सत्यनिष्ठा प्रमाण-पत्र प्रदान करने के अध्यधीन है।

पंकज गंगवार, अवर सचिव

सं. 14015/14/2017-अ.भा.से. (I)-ख—राष्ट्रपति, भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियमावली, 1955 के नियम 9(1) तथा भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम 3 के साथ पठित भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 8(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार के परामर्श से वर्ष 2016 की चयन सूची के लिए उक्त विनियमावली के विनियम 5(1) के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित रिक्तियों के लिए महाराष्ट्र राज्य सिविल सेवा के निम्नलिखित सदस्यों को भारतीय प्रशासनिक सेवा में अगले आदेश होने तक परिवीक्षा पर नियुक्त करते हैं तथा भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 5(1) के अंतर्गत महाराष्ट्र संवर्ग आबंटित करते हैं :—

चयन सूची 2016 (1.1.2016 से 31.12.2016 के बीच हुई रिक्तियों के लिए)

क्र.सं.	अधिकारी का नाम (श्री/सर्वश्री)	जन्म तिथि
1	वी.वी. माने	13.04.1964
2	एम.एम. सूर्यवंशी	07.03.1966
3	आर. एच. ठाकरे	20.03.1965
4	जे.एस. पापालकर	29.12.1966
5	एस.डी. मंधारे	21.05.1971
6	एस.जी. कोलटे	27.10.1967
7	आर.डी. नीवतकर	22.06.1965
8	ए.के. धाकने	15.07.1970
9	ए.ए. गुलहाने	14.11.1964
10	के. वी. जाधव	02.05.1964
11	जी.एम. बोडके	04.03.1965
12	सी.के. डांगे	29.12.1968

पंकज गंगवार, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 1 मई 2017

सं. 14012/01/2014-अ.भा.से.III—भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम 3-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, भारतीय प्रशासनिक सेवा के वर्ष 2011 के मध्य प्रदेश संवर्ग के सदस्य श्री बी विजय दत्ता को दिनांक 29.08.2013 से भारतीय प्रशासनिक सेवा में स्थायी करते हैं।

राजेश कुमार यादव, अवर सचिव

विदेश मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 1 मार्च 2017

सं. 02/पीबी-III/2017—अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर भारतीय विदेश सेवा (ख) के आशुलिपिक संवर्ग के प्रधान निजी सचिव ग्रेड के अधिकारी श्री रवीन्द्रन जी. दिनांक 28.02.2017 के अपराहन में सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गये हैं।

भूपाल सिंह, प्रशासनिक अधिकारी (पीबी-III)

दिनांक 19 अप्रैल 2017

सं. 03/पीबी-III/2017—भारतीय विदेश सेवा (ख) के आशुलिपिक संवर्ग के प्रधान निजी सचिव ग्रेड के अधिकारी श्री के. एस. मरवाह (जन्मतिथि 05.04.1959) स्वेच्छिक सेवानिवृत्त के फलस्वरूप दिनांक 05.04.2017 के अपराहन में सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गये हैं।

भूपाल सिंह, प्रशासनिक अधिकारी (पीबी-III)

नई दिल्ली, दिनांक 1 मई 2017

सं. 04/पीबी-III/2017—अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर भारतीय विदेश सेवा (ख) के आशुलिपिक संवर्ग के प्रधान निजी सचिव ग्रेड की अधिकारी श्रीमती सरोज अरोरा दिनांक 30.04.2017 के अपराहन में सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गई हैं।

पूनम गुप्ता, प्रशासनिक अधिकारी (पीबी-III)

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

वाणिज्य विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 17 अप्रैल 2017

सं. ए -1/4/2011-एसईजेड(खण्ड II)—राष्ट्रपति, भारतीय राजस्व सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों को अधोलिखित सारणी के कॉलम सं. 4 में यथा उल्लिखित तारीख से कालम सं. 3 में दिए गए उल्लेखानुसार वाणिज्य विभाग के अधीन विशेष आर्थिक क्षेत्रों में वेतन बैंड - 3 (रु. 15600-39100) जमा ग्रेड वेतन 6600/- रूप (पूर्वसंशोधित) में 3 वर्ष के लिए उपायुक्त (सीमा शुल्क) (समूह - 'क') के रूप में प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्त करते हैं :

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	क्षेत्रीय एसईजेड का नाम	कार्यभार ग्रहण करने की तारीख
1.	श्री अनीश मुरलीधरन, आईआरएस (सी एवं सीई - 2008)	कोचीन एसईजेड, कोच्ची	20.03.2017
2.	सुश्री आर. गुलजार बेगम, आईआरएस (सी एवं सीई - 2009)	एमईपीजेड एसईजेड, चेन्नै	30.01.2017

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	क्षेत्रीय एसईजेड का नाम	कार्यभार ग्रहण करने की तारीख
3.	श्री सालिक परवेज, आईआरएस (सी एवं सीई- 2009)	नोएडा एसईजेड, नोएडा	23.01.2017

जी श्रीनिवासन, अवर सचिव

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय

नई दिल्ली-110049, दिनांक 28 अप्रैल 2017

सं.ए-42011/3/2009-स्था—नियमित आधार पर उप-औद्योगिक सलाहकार (औद्योगिक सलाह) के रूप में पदोन्नति के फलस्वरूप, राष्ट्रपति ने श्री सुरेन्द्र सिंह, नियमित सहायक औद्योगिक सलाहकार (औद्योगिक सलाह) को वेतन बैंड-3, रु.15600-39100/- ग्रेड वेतन रु.6600/- की वेतन संरचना (अर्थात् 7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स का स्तर 11) में दिनांक 01.05.2017 (पूर्वाहन) अथवा पदभार ग्रहण करने की तारीख जो भी पहले हो, से उप-औद्योगिक सलाहकार (औद्योगिक सलाह) के रूप में नियमित आधार पर नियुक्ति प्रदान की है।

2. श्री सुरेन्द्र सिंह ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में दिनांक 01.05.2017 (पूर्वाहन) से उप-औद्योगिक सलाहकार (औद्योगिक सलाह) का पदभार ग्रहण कर लिया है।

तुआल जा काम, अवर सचिव

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग)

नई दिल्ली-110016, दिनांक 28 अप्रैल 2017

सं.ए-38011/19/2017-स्थापना—महामहिम राष्ट्रपति, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग में कार्यरत सुश्री ग्रेस टोपो, अनुभाग अधिकारी को दिनांक 30 अप्रैल, 2017 (अपराहन) को सेवानिवृत्ति की आयु पूरी होने पर सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त करते हैं।

कुलदीप कुमार, अवर सचिव

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 29 अगस्त 2016

सं. ए-19012/4/2016-स्था.1—राष्ट्रपति, श्री लव अग्रवाल, भा.प्र.से. (आं. प्र. : 1996) को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग में 37400-67000/-रु. (पीबी-4) के वेतन बैंड और 10,000/-रु. के ग्रेड वेतन में 29 अगस्त, 2016 (पूर्वाहन) से पांच वर्ष की अवधि हेतु या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, संयुक्त सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

ए. के. सिंह, अवर सचिव

दिनांक 30 सितंबर 2016

सं. ए-19014/13/2016-स्था.1—कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 28 सितंबर, 2016 के आदेश सं. 5/7/2016- सीएस-1(यू) के अनुसरण में, श्री अजय कुमार के. पी., अनुभाग अधिकारी (सीएसएलनं.(9225), को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में सीएसएस के ग्रेड -1(अवर सचिव) में पदोन्नति पर, तदर्थ आधार पर, 30.09.2016 के अपराहन से 30.06.2017 तक की अवधि के लिए अथवा नियमित आधार पर पद भरने तक अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, पदोन्नत किया जाता है।

2. अधिकारी की तदर्थ नियुक्ति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के उपर्युक्त आदेश में निर्दिष्ट निबंधन एवं शर्तों के अधीन होगी।

ए.के. सिंह, अवर सचिव

दिनांक 17 अक्टूबर 2016

सं. ए.19011/1/2016-स्था.1—राष्ट्रपति, श्री संजीव कुमार, आई.ए.एस. (एएम:1986) को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में, वेतन स्तर-15 (संशोधन पूर्व वेतन मान 67000-79000/- रुपये) में 17 अक्टूबर, 2016(पूर्वाह्न) से, अगले आदेशों तक, अपर सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

ए.के. सिंह, अवर सचिव

दिनांक 8 नवम्बर 2016

सं. ए-11013/03/2016-स्था.1—राष्ट्रपति महोदय श्री संपत दास दांडेकर, पीए, डाक विभाग को दिनांक 03 नवंबर, 2016 (अपराह्न) से वेतन मैट्रिक्स [रु. 47600-151100] के लेवल-8 में माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्यमंत्री (श्री फगन सिंह कुलस्ते) के प्रथम निजी सहायक के रूप में नियुक्त करते हैं।

2. श्री संपत दास दांडेकर की नियुक्ति को-टर्मिनस के आधार पर माननीय मंत्री द्वारा उनकी सेवाओं की जरूरत अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, होगी।

ए.के. सिंह, अवर सचिव

दिनांक 1 दिसम्बर 2016

सं. ए-38013/10/2016-स्था.1—स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग में श्री के. विजय कुमार, अनुभाग अधिकारी अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर 30.11.2016 के अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

ए.के. सिंह, अवर सचिव

सं. ए-38013/11/2016-स्था.1—स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग में अनुभाग अधिकारी, श्री मती सुनीति शर्मा अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर 30.11.2016 के अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गई हैं।

ए.के. सिंह, अवर सचिव

दिनांक 14 दिसम्बर 2016

सं. ए-19011/2/2016-ई.आई.—राष्ट्रपति महोदय डॉ. आर. के. वत्स, आई.ए.एस. (पश्चिम बंगाल:1986) को वेतन स्तर-15 (पूर्वसंशोधित वेतनमान 67000-79000 रुपये) में दिनांक 14.12.2016 (पूर्वा.) से अगले आदेशों तक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में अपर सचिव नियुक्त करते हैं।

ए.के. सिंह, अवर सचिव

दिनांक 21 फरवरी 2017

सं. ए-19014/01/2017-स्था.1—राष्ट्रपति, सुश्री प्रतिमा सिंह, आई.आर.एस.(सी व सीई:2009), उप आयुक्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, रायपुर, छत्तीसगढ़ को माननीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (सुश्री अनुप्रिया पटेल) की अपर निजी सचिव के रूप में, लेवल 11(रु.67,700/- से 2,08,700) में 15.02.2017 के अपराह्न से नियुक्त करते हैं।

2. सुश्री प्रतिमा सिंह की नियुक्ति को-टर्मिनस आधार पर अथवा जब तक मंत्री महोदय को उनकी सेवाएं चाहिए अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, तब तक के लिए होगी।

ए. के. सिंह, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 28 अप्रैल 2017

सं. ए. 12025/29/2015-सीएचएस-IV—संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर राष्ट्रपति महोदय, डॉ. नारायणन राजाराम को दिनांक 23 अक्टूबर, 2015 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के गैर-शिक्षण विशेषज्ञ उप-संवर्ग में विशेषज्ञ ग्रेड-III (एनस्थीसिया) के पद पर नियुक्त करते हैं।

ललित कुमार, अवर सचिव

दिनांक 8 मई 2017

सं. ए. 12025/32/2015-सीएचएस-III—राष्ट्रपति महोदय, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ. नीतु सरीन को दिनांक 03.09.2015 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के शिक्षण विशेषज्ञ उप-संवर्ग में प्रसूति एवं स्त्री रोग की विशेषज्ञता में सहायक प्रोफेसर के पद पर नियुक्त करते हैं।

ललित कुमार, अवर सचिव

नई दिल्ली-110011, दिनांक 8 मई 2017

सं. ए.12025/18/2014-सीएचएस 1—राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ. तोषिक गुप्ता को दिनांक 01 दिसम्बर, 2014 के पूर्वह्न से आगामी आदेशों तक पीबी-3 के वेतनमान (15600-39100 रुपए + 5400/- रुपए ग्रेड वेतन) (पूर्व-संशोधित) में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में अस्थाई रूप से नियुक्त करते हैं। डॉ. तोषिक गुप्ता को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, जयपुर के अंतर्गत चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात किया जाता है। वे नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की परीवीक्षा अवधि पर रहेंगे।

डी. डी. माहेश्वरी, अवर सचिव

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

(कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 7 अप्रैल 2017

सं. ए-19012/1/2017-आ.प्र.—सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के कार्यालय आदेश सं. 12015/01/2017-आईएसएस दिनांक 28.2.2017 के अधीन श्री पी.संगीत कुमार, भारतीय सांख्यिकी सेवा के अधिकारी को वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (एसएजी) में उनके नियमित प्रोन्नति के फलस्वरूप दिनांक 27.03.2017 (पूर्वाह्न) से आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग में वेतन मैट्रिक्स के लेवल 14 (संशोधित) (37,400-67,000/-रुपये तथा 10,000/-रुपये के ग्रेड पे के पूर्व संशोधित वेतनमान) में सलाहकार के पद पर नियुक्त करते हैं।

अभिजीत चक्रवर्ती, अवर सचिव

दिनांक 20 अप्रैल 2017

सं.ए-19012/2/2017-आ.प्र.—सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के कार्यालय आदेश सं. 12015/01/2017-आईएसएस दिनांक 28.2.2017 के अधीन श्री पी. आर. मेशराम, भारतीय सांख्यिकी सेवा के अधिकारी को वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (एसएजी) में उनके नियमित पदोन्नति के परिणाम स्वरूप आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग में दिनांक

10.3.2017 (पूर्वाहन से) वेतन मैट्रिक्स के लेवल 14 (संशोधित), (37,400-67,000 रु. तथा 10,000 रु. के ग्रेड पे के पूर्व संशोधित वेतनमान) में सलाहकार के पद पर नियुक्त करते हैं।

अभिजीत चक्रवर्ती, अवर सचिव

पंचायती राज मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 8 मई 2017

सं.ए.-22012/6/2015-स्था.—माननीय राष्ट्रपति जी ने आर्थिक कार्य विभाग (आईईएस कैडर डिवीजन) के फाईल संख्या 13016/4/2017-आईईएस के अंतर्गत, दिनांक 31.03.2017 को जारी आदेश संख्या टी-3/2017 के अनुसार, श्री अभिषेक मीना, अधिकारी-प्रशिक्षु (आईईएस:2015) को परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण पूरा होने पर पंचायती राज मंत्रालय में 3 अप्रैल, 2017 के पूर्वाहन से वेतन मैट्रिक्स स्तर 10(रु. 56100-177500) में सहायक निदेशक (जेटीएस स्तर) के रूप में नियुक्त किया है।

हरकेश चंद्र, अवर सचिव

जनजातीय कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 12 अप्रैल 2017

सं..11036/02/2017-पीसी— इस मंत्रालय की दिनांक 03 मार्च, 2017 की अधिसूचना संख्या 11036/02/2017-पीसी के अधिक्रमण में तथा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 5(1) और धारा 19(1) के नियमों के अनुसार जनजातीय कार्य मंत्रालय के निम्नलिखित अधिकारियों को एतद्वारा उनके नामों के आगे उल्लिखित विशेष विषय-वस्तुओं के संदर्भ में उन्हें केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) तथा अपीलीय प्राधिकारी (एए) के रूप में प्राधिकृत किया गया है:-

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	पद	पता/दूरभाष	विषय वस्तु	अपीलीय प्राधिकारी
1	श्रीमती एच.टी. हिलरी	वैज्ञानिक डी (एनआईसी)	कमरा सं. 217, जी-विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110115 दूरभाष सं. 23387970	एनआईसी से संबंधित मामले	श्री एच.एस. होरा तकनीकी निदेशक (एनआईसी)
2	श्री नदीम अहमद	अवर सचिव (टीएसपी)	कमरा सं. 217एफ, डी-विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110115 दूरभाष सं. 21073708	1. टीएसपी को एससीए 2. अंतर-मंत्रालीय टीएसपी समन्वय 3. आश्रम विद्यालय, छात्रावास तथा वीटीसी 4. नीति आयोग संबंधी मामले	श्री राजीव प्रकाश, निदेशक [अनुसूचित जनजाति कल्याण अनुदान (एसडब्ल्यूजी)]
3	श्रीमती सुनन्दा शर्मा	अनुभाग अधिकारी (आईएफडी)	कमरा सं. 217एफ, डी-विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110115 दूरभाष सं. 23387007	1. आईएफडी से संबंधित सभी मामले 2. बजट 3. सभी लेखा-परीक्षा पैरा	जीवन कुमार अवर सचिव (आईएफडी)
4	श्री जोशी जोसेफ	अनुभाग अधिकारी (स्था.)	कमरा सं. 400, बी-विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110115 दूरभाष सं. 23386952	1. सभी सेवाएं, बजटीय, लेखा तथा मंत्रालय के सचिवा. से संबंधित सभी मामले 2. सतर्कता संबंधी मामले 3. बहुपक्षीय निकाय (यूएनडीपी, विश्व बैंक आदि)	श्री असगर अली अवर सचिव (जीए/पीसी)
5	श्री राजीव कुमार सिंह	अनुभाग अधिकारी (एनजीओ)	कमरा सं. 416, बी-विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110115 दूरभाष सं. 23386952	1. एनजीओ से संबंधित सभी मामले	सुश्री रिमा शर्मा अवर सचिव (एनजीओ)
6	श्री राजीव कुमार सिंह	अनुभाग अधिकारी (पीवीटीजी)	कमरा सं. 416, बी-विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110115 दूरभाष सं. 23386952	1. पीवीटीजी से संबंधित सभी मामले 2. द्वीप विकास परियोजनाओं तथा अन्य संरचनागत परियोजनाओं सहित	सुश्री रिमा शर्मा अवर सचिव (पीवीटीजी)

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	पद	पता/दूरभाष	विषय वस्तु	अपीलीय प्राधिकारी
				अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूहों से संबंधित सभी मामले 3 जारावा नीति तथा सोमपेन नीति	
7	श्री संतोष कुमार	अनुभाग अधिकारी (पीसी)	कमरा सं. 217एफ, डी-विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110115 दूरभाष सं. 23381903	1. संसदीय मामले 2. जनजातीय कार्य मंत्रालय के सभी प्रभागों के साथ समन्वय 3. अन्य विभागों/मंत्रालयों से प्राप्त कैबिनेट नोट/ईएफसी/एसएफसी मेमो संबंधी समन्वय 4. ई-ऑफिस 5. ई-समीक्षा 6. मंत्रालय की वेबसाइट	श्री असगर अली अवर सचिव (जीए/पीसी)
8	श्री संतोष कुमार	अनुभाग अधिकारी (सामान्य अनुभाग) (अतिरिक्त प्रभार)	कमरा सं. 400, बी-विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110115 दूरभाष सं. 23387469	1. मंत्रालय के सचिवालय से संबंधित सभी क्रय व्यवस्था संबंधी मामले . 2. हार्डवेयर/सॉफ्ट वेयर आदि की आईटी खरीद 3. विभिन्न बैठकों को आयोजित करना	श्री असगर अली अवर सचिव (जीए/पीसी)
9	श्री शैल कुमार	अनुभाग अधिकारी (एफआरए)	कमरा सं. 216जे, डी-विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110115 दूरभाष सं. 23381962	1. वन अधिकार अधिनियम, 2006 (एफआरए) से संबंधित सभी मामले	श्री के. चन्द्रशेखर अवर सचिव (आजीविका/एफआरए)
10	श्री प्रवीण पंडित	अनुभाग अधिकारी (अनुदान)	कमरा सं. 217एफ, डी-विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110115 दूरभाष सं. 23381962	1. अनुच्छेद 275(1) अनुदान 2. पीसी बैठकों का आयोजन तथा निर्गमन 3. ईएसआरए संबंधी मामले	श्री पी.के. शाहू अवर सचिव (अनुदान)
11	श्री एस. पदमनाभा	अनुभाग अधिकारी (छात्रवृत्ति./डीबीटी)	कमरा सं. 416, बी-विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110115 दूरभाष सं. 23070508	1. छात्रवृत्ति योजनाएं 2. मंत्रालय का डीबीटी प्रकोष्ठ	श्री एम.के.झा. अवर सचिव (छात्रवृत्ति/डीबीटी)
12	श्री सुरिन्द्रपाल शर्मा	अनुभाग अधिकारी (आजीविका)	कमरा सं. 217एफ, डी-विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110115 दूरभाष सं. 23383461	1. प्रशासनिक मामलों सहित भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ लि.(ट्राइफेड) 2. लघु वन उत्पाद (एमएफपी) विपणन 3. न्यायिक कार्रवाई-एलआईएमबीएस सहित निगरानी तथा समन्वय 4. भूमि तथा पुनर्वास तथा पुनःस्थापन (आर एण्ड आर) संबंधी मामले 5. प्रशासनिक मामलों सहित राष्ट्रीय अनुसूचित जनजातीय वित्त एवं विकास निगम (एनएसटीएफडीसी) संबंधी मामले 6. कौशल विकास संबंधी मामले तथा समन्वय, राष्ट्रीय संसाधन केन्द्र (वनजीवन) 7. स्वास्थ्य तथा आयुष संबंधी मामले (सिकल सेल एनीमिया सहित) 8. वन बंधु कल्याण योजना (वीकेवाई)	श्री के. चन्द्रशेखर अवर सचिव (आजीविका) एफआरए/

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	पद	पता/दूरभाष	विषय वस्तु	अपीलीय प्राधिकारी
13	श्री डी.एन. मण्डल	सहायक निदेशक (सांख्यिकी)	कमरा सं. 239, अगस्त क्रांति भवन, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066 दूरभाष सं. 26182823	1. जनजातीय सांख्यिकी 2. जनजातीय कार्य मंत्रालय वार्षिक रिपोर्ट 3. जनजातीय विकास कार्यक्रमों का मूल्यांकन 4. महिला एवं बाल मामले 5. जनजातीय विकास में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	श्रीमती सी.एच.हनी निदेशक (सांख्यिकी)
14	श्री विश्वा बिहारी पाणिग्राही	उप- निदेशक (नीति विश्लेषण)	कमरा सं. 61, अगस्त क्रांति भवन, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066 दूरभाष सं. 26182823	1. राष्ट्रीय जनजातीय नीति 2. जनजातीय अनुसंधान संस्थान (टीआरआई) 3. जनजातीय विकास के लिए वित्त आयोग, उच्चस्तरीय तथा अन्य समितियों संबंधी मामले	श्री वी. अशोक निदेशक (पीए)
15	श्री रमेश कुमार वर्मा	अनुसंधान अधिकारी (एनसीएसटी/आर एण्ड एम)	कमरा सं. 341, अगस्त क्रांति भवन, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066 दूरभाष सं. 26182153	1. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एनसीएसटी) (प्रशासनिक तथा रिपोर्ट सहित) 2. अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचार तथा विनियमन संबंधी सभी मामले 3. अनुसंधान तथा मीडिया (जनजातीय कार्निवल सहित)	श्री विजय कुमार अवर सचिव (एनसीएसटी/आर एण्ड एम)
16	श्री धर्मबीर कुमार सिंह	अनुभाग अधिकारी (शिकायत) (अतिरिक्त प्रभार)	कमरा सं. 281, अगस्त क्रांति भवन, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066 दूरभाष सं. 26182428	1. लोक शिकायत 2. परिणाम संरचना दस्तावेज (आरएफडी)/नागरिक चार्टर	श्री गोपाल साधवानी निदेशक (सीएलएम/ शिकायत)
17	श्री धर्मबीर कुमार सिंह	अनुभाग अधिकारी (सीएलएम)	कमरा सं. 279, अगस्त क्रांति भवन, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066 दूरभाष सं. 26182428	1. विधायी तथा संवैधानिक मामले 2. अनुसूचित जनजातियों की सूची का अनुसूचीकरण/पुनःअनुसूचीकरण 3. राज्यपाल की रिपोर्ट तथा जनजातीय सलाहकार परिषद (टीएसी) सहित सभी अनुसूची V के क्षेत्र 4. आईटीडीपी/आईटीडीए, एमएडीए, क्लस्टर 5. पीआरआई/पेसा	श्री उत्तर कुमार कर अवर सचिव (सीएलएम)

असगर अली, अवर सचिव

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 3 मई 2017

सं 2007/ई(जीआर)/32/1—राष्ट्रपति जी निम्नलिखित प्रोबेशनरों को सिविल सेवा परीक्षा, 2006 के आधार पर उनके नाम के सामने दर्शाई गई तारीख से भारतीय रेल कार्मिक सेवा (आईआरपीएस) में सहर्ष नियुक्त करते हैं:—

क्रम संख्या	नाम (सर्वश्री/स)	कार्यभार ग्रहण करने की तारीख
1	मातीवानन एस. ए.	14.12.2007
2	बीर सिंह (इस्तीफा दे चुके)	10.12.2007

क्रम संख्या	नाम (सर्वश्री/स)	कार्यभार ग्रहण करने की तारीख
3	योगेश कुमार (इस्तीफा दे चुके)	10.12.2007
4	अजय कुमार दीक्षित (शा.वि.)	25.08.2008
5	रंजन कुमार मोहंती	30.05.2011
6	मनोज कुमार पांडेय	30.05.2011
7	सिद्धु रमण रेड्डी	21.06.2011

शीबा ब्रिडास, उप निदेशक/ स्था.(राज.भर्ती)

सं. 2007/ई(जीआर)/33/1—राष्ट्रपति जी, निम्नलिखित प्रोबेशनरों को सिविल सेवा परीक्षा, 2006 के आधार पर उनके नाम के सामने दर्शाई गई तारीख से रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) में सहर्ष नियुक्त करते हैं:-

क्रम संख्या	नाम (सर्वश्री/स)	कार्यभार ग्रहण करने की तारीख
1	बुद्धि दुबे (अनंतिम)	30.05.2011
2	चन्द्र मोहन मिश्रा (अनंतिम)	30.05.2011

शीबा ब्रिडास, उप निदेशक/ स्था.(राज.भर्ती)

PRIME MINISTER'S OFFICE

New Delhi-110 011, the 28th April 2017

No. A.38013/1/2016-PME —Consequent upon attaining the age of superannuation, Shri Brahmu Ram, Section Officer (CSS) in this office, is retired from Government service with effect from the afternoon of 30th April, 2017.

A. K. DAS, Under Secy.

RAJYA SABHA SECRETARIAT

New Delhi, the 10th April 2017

No. RS/42/5/2017/17-Perl.—Shri Deepak Kumar, Private Secretary on *in situ* basis in Rajya Sabha Secretariat has been appointed as Private Secretary in the personal staff of Hon'ble Chairman, Rajya Sabha in Level 10 in the Pay Matrix (corresponding to the pre-revised Scale of Pay Band-3 of Rs. 15600—39100 + Grade Pay of Rs. 5,400) w.e.f. the forenoon of 1st April, 2017 on co-terminus and deputation basis and until further orders.

2. The appointment of Shri Deepak Kumar is at the discretion of the Hon'ble Chairman, Rajya Sabha and will be co-terminus with the term of his office.

S. RANGARAJAN, Jt. Director

LOK SABHA SECRETARIAT

New Delhi-110 001, the 11th April 2017

No. F.23/02/2017/GN-8227/AN-I—The Speaker is pleased to appoint Shri D.S.Malha, Director, to the grade of Joint Secretary in Level 14 in the Pay Matrix (Provisional) {Rs. 37400-67000 (PB-4) + G.P. Rs. 10000 (pre-revised)} with effect from 11th April, 2017, until further orders.

P. C. KOUL, Jt. Secy.

New Delhi-110001, the 6th April 2017

No. PF.1774-R(3)/GN-8213/AN-I/2017—The Speaker is pleased to appoint the following Security Officers (Technical) to the grade of Assistant Director (Technical) in Level 11 in the Pay Matrix (provisional) [Rs. 15600-39100 (PB-3) + Grade Pay Rs. 6600 (pre-revised)], in the order as shown below, with effect from 5th April, 2017, until further orders :-

1. Shri P. S. Rawat
2. Shri Pradyuman Singh

2. Their appointment in the grade of Assistant Director (Technical) is subject to the outcome of the Writ Petition No. WP(C) 7559/2011 titled "K.D. Bhardwaj & Ors. Vs. Union of India & Ors." pending in the Hon'ble High Court of Delhi.

ARCHNA PATHANIA, Dy. Secy.

No. PF.2455-R(3)/GN-8214/AN-I/2017—The Speaker is pleased to appoint Shri Amit Anurag, Parliamentary Interpreter Grade-II to the grade of Parliamentary Interpreter Grade-I in Level 11 in Pay Matrix (Provisional) [Rs.15600-39100 (PB-3) + Grade Pay Rs. 6600 (Pre-revised)], with effect from 05th April, 2017, until further orders.

ARCHNA PATHANIA, Dy. Secy.

No. PF-810-R(7)/GN-8215/AN-I/2017—Under Rule 48 of CCS(Pension) Rules, 1972 as adopted vide R&CS Order No. PGF-104/73 dated 25th January, 1973 and R&CS Order PGF-201/79 dated 1st January, 1979 as amended from time to time, the Competent Authority has accepted the request of Smt. Indu Goel, Additional Director (LARRDIS) in the pay band of Rs. 15600-39100 (PB-3) + Grade Pay Rs. 8000/- (pre-revised) to permit her to retire voluntarily from service with effect from 06th April, 2017.

2. Accordingly, Smt. Indu Goel has retired voluntarily from service with effect from the afternoon of 06th April, 2017.

ARCHNA PATHANIA, Dy. Secy.

No. F/23/05/2017/GN-8216/AN-I—The Speaker is pleased to appoint Shri Himadri Nath Pandit, Joint Director (Security) to the grade of Additional Director(Security) in the pay band of Rs. 15600-39100 (PB-3) + Grade Pay Rs. 8000 (pre-revised) with effect from 5th April, 2017, until further orders.

ARCHNA PATHANIA, Dy. Secy.

No. F/23/05/2017/GN-8217/AN-I—The Speaker is pleased to appoint the following Assistant Directors(Security) to the grade of Joint Director(Security) in Level 12 in the Pay Matrix (Provisional) [Rs.15600-39100 (PB-3) + Grade Pay Rs. 7600 (pre-revised)], in the order as shown below, with effect from 5th April, 2017, until further orders:

1. Shri Ravi Gupta
2. Shri Rajiv Sharma-I
3. Shri Dayanand

ARCHNA PATHANIA, Dy. Secy.

No. F/23/05/2017/GN-8218/AN-I—The Speaker is pleased to appoint Shri Azam Mian, Assistant Director(Security-TSP) to the grade of Assistant Director(Security) in Level 11 in the Pay Matrix (Provisional) [Rs.15600-39100 (PB-3) + Grade Pay Rs. 6600 (pre-revised)] with effect from 5th April, 2017, until further orders.

ARCHNA PATHANIA, Dy. Secy.

No. F/23/05/2017/GN-8219/AN-I—The Speaker is pleased to appoint the following Security Officers to the grade of Assistant Director(Security) in Level 11 in the Pay Matrix (Provisional) [Rs.15600-39100 (PB-3) + Grade Pay Rs. 6600 (pre-revised)], in the order as shown below, with effect from 5th April, 2017, until further orders:

1. Shri Abhay Kumar
2. Shri Rejaul Karim Purnavi
3. Shri Bhagwati Prasad Raturi

ARCHNA PATHANIA, Dy. Secy.

No. F/23/05/2017/GN-8220/AN-I—The Speaker is pleased to appoint Smt. Deepika Bhalla, Security Officer to the grade of Assistant Director (Security) in Level 11 in the Pay Matrix(Provisional) [Rs.15600-39100 (PB-3) + Grade Pay Rs. 6600 (pre-revised)], on *ad-hoc* basis with effect from 5th April, 2017, until further orders.

ARCHNA PATHANIA, Dy. Secy.

No. PF.881-R(3)/GN-8221/AN-I/2017—The Speaker is pleased to appoint Shri R. Raj Kumar Balasubramanian, Parliamentary Interpreter Grade-II to the grade of Parliamentary Interpreter Grade-I in Level 11 in Pay Matrix (Provisional) [Rs.15600-39100 (PB-3) + Grade Pay Rs. 6600 (Pre-revised)], on *ad hoc* basis with effect from 05th April, 2017, until further orders.

ARCHNA PATHANIA, Dy. Secy.

No. F.23/07/2017/GN-8222/AN-I—The Speaker is pleased to appoint Smt. Gajinder Pal Kaur, Additional Director(PSS), to the grade of Director (PSS) in Level 13 in the Pay Matrix (Provisional) [Rs.37400-67000(PB-4) *plus* Grade Pay Rs. 8700 (pre-revised)] with effect from 5th April, 2017, until further orders.

ARCHNA PATHANIA, Dy. Secy.

No. F. 23/07/2017/GN-8223/AN-I—The Speaker is pleased to appoint Smt. Savita Kakkar, Joint Director (PSS), to the grade of Additional Director (PSS) in the Pay Band of Rs. 15600-39100 (PB-3) *plus* Grade Pay Rs. 8000 (pre-revised) with effect from 5th April, 2017, until further orders.

ARCHNA PATHANIA, Dy. Secy.

No. F. 23/07/2017/GN-8224/AN-I—The Speaker is pleased to appoint Shri M.S. Ananthan, Senior Private Secretary, to the grade of Joint Director (PSS) in Level 12 in the Pay Matrix (Provisional) [Rs.15600-39100 (PB-3) *plus* Grade Pay Rs. 7600 (pre-revised)] with effect from 5th April, 2017, until further orders.

ARCHNA PATHANIA, Dy. Secy.

No. F. 23/07/2017/GN-8225/AN-I—The Speaker is pleased to appoint Smt. Esha Chowdhary, Private Secretary, to the grade of Senior Private Secretary in Level 11 in the Pay Matrix (Provisional) [Rs.15600-39100 (PB-3) *plus* Grade Pay Rs. 6600 (pre-revised)] with effect from 5th April, 2017, until further orders.

ARCHNA PATHANIA, Dy. Secy.

The 11th April 2017

No. F. 23/03/2017/GN-8228/AN-I—The Speaker is pleased to appoint Shri Srinivasulu Gunda, Additional Director, to the grade of Director in Level 13 in Pay Matrix (Provisional) {Rs.37400-67000 (PB-4) + Grade Pay Rs. 8700 (pre-revised)} with effect from 11th April, 2017, until further orders.

ARCHNA PATHANIA, Dy. Secy

No. F. 23/03/2017/GN-8229/AN-I—The Speaker is pleased to appoint Shri Maheshwar, Deputy Secretary, to the grade of Additional Director in the pay band of Rs. 15600-39100 (PB-3) + Grade Pay Rs. 8000 (pre-revised) with effect from 11th April, 2017, until further orders.

ARCHNA PATHANIA, Dy. Secy.

The 12th April 2017

No. F. 15/10/2014/GN-8230/AN-I—Shri Ujjwal Pant, Senior Executive/Legislative/Committee/Protocol Assistant is appointed on deputation and co-terminus basis as Senior Private Secretary in Level 11 in the Pay Matrix (Provisional) [Rs. 15600-39100 (PB-3) *plus* Grade Pay Rs. 6600 (pre-revised)] on the personal staff of Hon'ble Deputy Speaker, Lok Sabha (Dr. M. Thambi Durai) with effect from 12th April, 2017 or until further orders, whichever is earlier.

2. His appointment on the personal staff of Hon'ble Deputy Speaker, Lok Sabha will be on tenure basis and during the pleasure of or co-terminus with the term of Hon'ble Deputy Speaker (Dr. M. Thambi Durai) as Chairperson of the Committee on Members of Parliament Local Area Development Scheme.

ARCHNA PATHANIA, Dy. Secy.

The 17th April 2017

No. F. 41/09/2017/GN-8232/AN-I—The Speaker is pleased to place the following Deputy Secretaries in Level 12 in Pay Matrix (Provisional) {Rs. 15600-39100 (PB-3) + Grade Pay Rs. 7600 (pre-revised)}, to the pay band of Rs. 15600-39100 (PB-3) + Grade Pay Rs. 8000 (pre-revised) attached to the post of Additional Director with effect from 18th March, 2017 under the Time Scale Placement Scheme-2011:-

1. Shri R.C. Sharma
2. Shri Sanjay Sethi

ARCHNA PATHANIA, Dy. Secy.

No. F. 41/09/2017/GN-8233/AN-I—The Speaker is pleased to place the following Under Secretaries in Level 11 in Pay Matrix (Provisional) {Rs.15600-39100 (PB-3) + Grade Pay Rs. 6600 (pre-revised)}, to Level 12 in Pay Matrix (Provisional) {Rs.15600-39100 (PB-3) + Grade Pay Rs. 7600 (pre-revised)} attached to the post of Deputy Secretary with effect from 18th March, 2017 under the Time Scale Placement Scheme-2011:-

1. Shri Ramesh Chand Aheria
2. Shri Rahul Singh
3. Smt. Neena Juneja

ARCHNA PATHANIA, Dy. Secy.

The 18th April 2017

No. F. 41/09/2017/GN-8234/AN-I.—The Speaker is pleased to place the following Additional Directors (LARRDIS) in the pay band of Rs. 15600-39100 PB-3) + G.P. 8000 (Pre-Revised), to Level 13 in Pay Matrix (provisional) [Rs. 37400-

67000 (PB-4) + G.P. 8700 (Pre-revised)] attached to the post of Director (LARRDIS) with effect from 16th April, 2017 under the Time Scale Placement Scheme-2011 :-

SL. No.	Name
01.	Dr. Jayadev Sahu
02.	Shri Naushad Alam
03.	Shri B. Phani Kumar

ARCHNA PATHANIA, Dy. Secy.

New Delhi-110001, the 7th April 2017

No. PF. 2789-R(3)/GN-8226/AN-I/2017—Consequent upon his selection for the post of Director(Security), the Speaker is pleased to appoint Shri Ravendra Pal Singh Malik, Deputy Inspector General, Border Security Force as Director (Security) in Level 13A in the Pay Matrix (provisional) [Rs. 37400-67000 (PB-4) + Grade Pay of Rs. 8900 (pre-revised)] in Lok Sabha Secretariat on deputation basis for a period of three years with effect from 31.03.2017(AN) upto 31.03.2020 or until further orders, whichever is earlier.

2. The terms and conditions of his deputation will be regulated in accordance with provisions of DOPT OM No. 6/8/2009-Estt. (Pay II) dated 17th June, 2010 as adopted by Lok Sabha Secretariat *vide* R&CS Order No. Misc. 87/2011 dated 4th February, 2011 and as amended from time to time.

SANJAY SETHI, Dy. Secy.

The 17th April 2017

No. PF. 2789-R(3)/GN-8231/AN-I/2017—Consequent upon his selection for the post of Director (Security), the Speaker is pleased to appoint Shri Bhuwan Chandra Joshi, Deputy Inspector General, Border Security Force as Director (Security) in Level 13A in the Pay Matrix (provisional) [Rs. 37400-67000 (PB-4) + Grade Pay of Rs. 8900 (pre-revised)] in Lok Sabha Secretariat on deputation basis for a period of three years with effect from 11.04.2017 upto 10.04.2020 or until further orders, whichever is earlier.

2. The terms and conditions of his deputation will be regulated in accordance with provisions of DOPT OM No. 6/8/2009-Estt.(Pay II) dated 17th June, 2010 as adopted by Lok Sabha Secretariat *vide* R&CS Order No. Misc. 87/2011 dated 4th February, 2011 and as amended from time to time.

SANJAY SETHI, Dy. Secy.

New Delhi-110001, the 2nd May 2017

No. 4(1)-PU/2017—The following Members of Lok Sabha and Rajya Sabha have been elected to serve on the Committee on Public Undertakings for the term beginning on 1 May 2017 and ending on 30 April 2018:

Lok Sabha

1. Shri L. K. Advani
2. Shri Ramesh Bais
3. Shri G. Hari
4. Shri Rabindra Kumar Jena
5. Dr. Hari Babu Kambhampati
6. Shri Kristappa Nimmala
7. Shri Ajay Nishad
8. Shri Shanta Kumar
9. Shri B. Vinod Kumar

10. Shri Prahlad Singh Patel
11. Prof. Saugata Roy
12. Adv. Narendra Keshav Sawaikar
13. Shri Ravneet Singh
14. Shri Sushil Kumar Singh
15. Shri Rameshwar Teli

Rajya Sabha

16. Shri Narendra Budania
17. Shri Naresh Gujral
18. Shri Shamsher Singh Manhas
19. Shri Praful Patel
20. Shri A.K. Selvaraj
21. Shri Tapan Kumar Sen
22. Shri Ram Chandra Prasad Singh

The Speaker, Lok Sabha has been pleased to appoint Shri Shanta Kumar, MP as Chairperson of the Committee (2017-2018).

G. C. PRASAD, Dy. Secy.

NATIONAL SECURITY COUNCIL SECRETARIAT

New Delhi-110001, the 5th May 2017

No. A-12024/03/2015-Ad—The president is pleased to appoint Shri Rohit Singh as Assistant Director in the Pay Matrix -10 (7th CPC) corresponding to Pay Band of Rs. 15600-39100 (PB-3) plus Grade Pay of Rs. 5400/- (6th CPC) on contract basis with effect from the forenoon of 1st May 2017, for a period of three years (including one year probation) extendable upto 5 years or until further orders, whichever is earlier.

R. K. JAIN, Dy. Secy.

DEPARTMENT OF SPACE

Bengaluru-560 094, the 3rd May 2017

No. A. 22012/4/2017-I —The President is pleased to appoint Shri T. Krishnakumar as Under Secretary (Personnel) in Department of Space, Bengaluru, in Level-11 in the Pay Matrix, with effect from the forenoon of 23rd December, 2016 and until further orders, whichever is earlier.

K. V. LAKSHMANA KUMAR, Officer on Special Duty

Bengaluru-560 094, the 3rd May 2017

No. A. 22012/3/2017-I —The President is pleased to appoint Shri K.V. Lakshmana Kumar as Officer on Special Duty in Department of Space, Bengaluru, in Level-13 in the Pay Matrix, with effect from the forenoon of 13th December, 2016 and until further orders, whichever is earlier.

T. KRISHNAKUMAR, Under Secy.

No. A. 22012/5/2017-I —The President is pleased to appoint Shri Sharique Alam as Under Secretary (Vigilance & Legal) in Department of Space, Bengaluru, in Level-11 in the Pay Matrix, with effect from the forenoon of 5th January, 2017 and until further orders, whichever is earlier.

T. KRISHNAKUMAR, Under Secy.

NITI AAYOG

New Delhi, the 27th April 2017

No.A.12025/15/2012-Admn.II—On the recommendation of the UPSC, the Competent Authority, Planning Commission(now NITI Aayog) had appointed Sh. Venkata Narayana Angina as Research Officer(Water Supply) in PB-3 [Rs.15600-39100] plus Grade Pay of Rs. 5400/- in the Planning Commission(now NITI Aayog) on Direct Recruitment basis with effect from 10.12.2012 (FN) on purely temporary basis. He has cleared his probation w.e.f. 10.12.2013.

SUNIL KUMAR, Under Secy.

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE
(DEPARTMENT OF JUSTICE)

New Delhi-110011, the 10th March 2017

No. K.13016/01/2017-US.II—In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 217 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint Shri Justice Thottathil Bhaskaran Nair Radhakrishnan, Judge of the Kerala High Court, to be the Chief Justice of the Chhattisgarh High Court with effect from the date he assumes charge of his office.

RAJINDER KASHYAP, Jt. Secy.

No. K-13022/01/2017-US.II—In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 217 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint Shri Justice Pradip Kumar Mohanty, Judge of Jharkhand High Court, to be the Chief Justice of the Jharkhand High Court with effect from the date he assumes charge of his office.

RAJINDER KASHYAP, Jt. Secy.

No. K.13024/01/2017-US.I— In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 217 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint Shri Justice Navaniti Prasad Singh, Judge of the Patna High Court, to be the Chief Justice of the Kerala High Court with effect from the date he assumes charge of his office.

RAJINDER KASHYAP, Jt. Secy.

No. K.13025/01/2017-US.II— In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 217 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint Shri Justice Hemant Gupta, Judge of the Patna High Court, to be the Chief Justice of the Madhya Pradesh High Court with effect from the date he assumes charge of his office.

RAJINDER KASHYAP, Jt. Secy.

No. K.13028/01/2017-US.II— In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 217 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint Shri Justice Rajendra Menon, Judge of the Madhya Pradesh High Court, to be the Chief Justice of the Patna High Court with effect from the date he assumes charge of his office.

RAJINDER KASHYAP, Jt. Secy.

The 24th March 2017

No. K.13021/01/2017-US.II—In exercise of the powers conferred by section 95 of the Constitution of Jammu and Kashmir, the President is pleased to appoint Shri Justice Badar Durrez Ahmed, Judge of the Delhi High Court, to be the Chief Justice of the Jammu and Kashmir High Court with effect from the date he assumes charge of his office.

RAJINDER KASHYAP, Jt. Secy.

No. K.13030/01/2017-US.II—In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 217 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint Shri Justice Pradeep Nandrajog, Judge of the Delhi High Court, to be the Chief Justice of the Rajasthan High Court with effect from the date he assumes charge of his office.

RAJINDER KASHYAP, Jt. Secy.

The 31st March 2017

No. K.13022/04/2016-US.II—In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 217 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint Shri Justice Ratnaker Bhengra, Additional Judge of the Jharkhand High Court, to be a Judge of the Jharkhand High Court with effect from the date he assumes charge of his office.

RAJINDER KASHYAP, Jt. Secy.

No. K.13024/03/2016-US.I—In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 217 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint S/Shri Justices (i) Sunil Thomas (ii) Shaji Paul Chaly, (iii) Smt. Anu Sivaraman, (iv) Raja Vijayaraghavan Valsala, (v) Bhaskaran Pillai Sudheendra Kumar (vi) Keloth Puthenpura Jyothindranath and (vii) Smt. Mary Joseph, Additional Judges of the Kerala High Court, to be Judges of the Kerala High Court with effect from the date they assume charge of their respective offices.

RAJINDER KASHYAP, Jt. Secy.

No. K.13025/01/2015-US.II—In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 217 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint Shri Justice Alok Verma, Additional Judge of the Madhya Pradesh High Court, to be a Judge of the Madhya Pradesh High Court with effect from the date he assumes charge of his office.

RAJINDER KASHYAP, Jt. Secy.

No. K.13026/04/2017-US.I—In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 217 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint Kumari Justice Indira Banerjee, Judge of the Delhi High Court, to be the Chief Justice of the Madras High Court with effect from the date she assumes charge of her office.

RAJINDER KASHYAP, Jt. Secy.

No. K-13027/02/2016-US.II—In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 217 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint S/Shri Justices (i) Krushna Ram Mohapatra, (ii) Jatindra Prasad Das and (iii) Dr. Durga Prasanna Choudhury, Additional Judges of the Orissa High Court, to be Judges of the Orissa High Court with effect from the date they assume charge of their respective offices.

RAJINDER KASHYAP, Jt. Secy.

New Delhi-110011, the 14th March 2017

No. K. 11019/01(21)/2017-US.II—In exercise of the powers conferred by Section 100 of the Constitution of Jammu & Kashmir, the President is pleased to appoint Shri Justice Ramalingam Sudhakar, senior-most Judge of the Jammu & Kashmir High Court, to perform the duties of the office of the Chief Justice of that High Court with effect from 15th March, 2017 consequent upon the retirement of Shri Justice Narayanan Nadar Paul Vasanthakumar, Chief Justice of the Jammu & Kashmir High Court.

S. C. BARMMA, Jt. Secy.

The 15th March 2017

No. K-11019/01/2017-US.II—In exercise of the powers conferred by article 223 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint Shri Justice Sanjay Kumar Seth, Judge of the Madhya Pradesh High Court, to perform the duties of the office of Chief Justice of that High Court with effect from the date Shri Justice Rajendra Menon relinquishes charge of the office of Acting Chief Justice of the Madhya Pradesh High Court consequent upon his appointment as the Chief Justice of the Patna High Court.

S. C. BARMMA, Jt. Secy.

No. K-11019/01/2017-US.II—In exercise of the powers conferred by article 223 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint Shri Justice Antony Dominic, Judge of the Kerala High Court, to perform the duties of the office of Chief Justice of that High Court with effect from the date Justice Shri Thottathil Bhaskaran Nair Radhakrishnan relinquishes charge of the office of Acting Chief Justice of the Kerala High Court consequent upon his appointment as the Chief Justice of the Chhattisgarh High Court.

S. C. BARMMA, Jt. Secy.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 3rd May 2017

No. I-14011/2/2017-IPS.I (I)—In exercise of the provisions contained in sub-regulation (3) of Regulation 7 of the Indian Police Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, the Union Public Service Commission has on 01.05.2017 approved the Select List of the year 2016 prepared by the Selection Committee in its meeting held on 10.04.2017, containing the names of the following State Police Service Officers of Uttar Pradesh towards filling up of 25 substantive vacancies in the Uttar Pradesh Cadre of Indian Police Service:-

Select List- 2016

S.No.	Name (S/Shri/Smt.)	Date of Birth
1.@	Jai Prakash Singh	25.06.1959
2.	Shakil Ahmad Khan	01.06.1961
3.@	Amit Mishra	31.07.1963
4.	Shailesh Kumar Yadav	28.02.1965
5.	Mirza Manzar Baig	01.07.1963
6.	Rahul Raj	01.07.1965
7.	Shafiq Ahmad	01.06.1964
8.	Rajesh Kumar	19.01.1962
9.	Radhey Shyam	14.04.1965
10.	Dr. Dharm Veer Singh	08.01.1965
11.	Kalpna Saxena	21.04.1968
12.	Sureshwar	10.10.1966
13.	Ashok Kumar	01.06.1967
14.	Radhey Mohan Bhardwaj	01.10.1962
15.	Pradeep Gupta	12.10.1966
16.	Om Prakash	14.02.1960
17.	Swami Nath	24.07.1962
18.	Dr Om Prakash Singh	01.10.1964
19.	Dr. Anil Kumar Mishra	24.10.1961
20.	Jai Prakash	01.07.1963
21.	Shakiluzzama	01.01.1962
22.	Ramji Singh Yadav	01.10.1965
23.	Sanjay Singh	12.02.1965
24.	Ram Kishun	01.05.1968
25.	Raj Kamal Yadav	06.01.1964

@ The names at S. No. 1 and 3 have been included in the List provisionally subject to clearance in the criminal proceedings pending against them.

KULDEEP KUMAR, Section Officer (IPS-1)

No. I-14011/2/2017-IPS.I (II)—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 9 of the Indian Police Service (Recruitment) Rules, 1954, read with sub-regulation (1) of regulation 9 of the Indian Police Service (Appointment by

Promotion) Regulations, 1955, the President is pleased to appoint the following members of Uttar Pradesh Police Service to the Indian Police Service on probation and to allocate them to the Uttar Pradesh Cadre under sub-rule (1) of the rule 5 of the Indian Police Service (Cadre) Rules, 1954 :-

Select List- 2016

S.No.	Name (S/Shri/Smt.)	Date of Birth
1.	Shakil Ahmad Khan	01.06.1961
2.	Shailesh Kumar Yadav	28.02.1965
3.	Mirza Manzar Baig	01.07.1963
4.	Rahul Raj	01.07.1965
5.	Shafiq Ahmad	01.06.1964
6.	Rajesh Kumar	19.01.1962
7.	Radhey Shyam	14.04.1965
8.	Dr. Dharm Veer Singh	08.01.1965
9.	Kalpna Saxena	21.04.1968
10.	Sureshwar	10.10.1966
11.	Ashok Kumar	01.06.1967
12.	Radhey Mohan Bhardwaj	01.10.1962
13.	Pradeep Gupta	12.10.1966
14.	Om Prakash	14.02.1960
15.	Swami Nath	24.07.1962
16.	Dr Om Prakash Singh	01.10.1964
17.	Dr. Anil Kumar Mishra	24.10.1961
18.	Jai Prakash	01.07.1963
19.	Shakiluzzama	01.01.1962
20.	Ramji Singh Yadav	01.10.1965
21.	Sanjay Singh	12.02.1965
22.	Ram Kishun	01.05.1968
23.	Raj Kamal Yadav	06.01.1964

2. The aforesaid officers will remain on probation for one year as per rule of Indian Police Service (Probation) Rules, 1954 and the officers will obtain induction training as per sub rule 5(4) of Indian Police Service (Probation) Rules, 1954 as amended dated 10.05.2011.

3. The appointments will take effect from the date of issue of this notification.

KULDEEP KUMAR, Section Officer (IPS-1)

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES & PENSIONS
(DEPARTMENT OF PERSONNEL & TRAINING)

New Delhi, the 13th January 2017

No. F. No. 14015/17/2015-AIS(I)-A— In compliance with the order dated 09.09.2016 passed by Hon'ble CAT, Cuttak Bench, Cuttak in O. A. Nos.260/00205, 00388 & 00389 of 2016 and in supersession of this Department's notification of even number dated 09.10.2015 and also in exercise of powers conferred by Rule 8(1) of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954, read with Regulation 9(1) of the Indian Administrative Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, the President is pleased to re-notify the Select List of State Civil Service officers of Odisha containing the following names prepared on 15.12.2016 under Regulation 5(5) and approved on 11.01.2017, under Regulation 7(2) towards

filling up promotion quota vacancies in Odisha cadre of IAS under State Civil Service category determined by the Government of India under Regulation 5(1) of the said Regulations in consultation with the State Government:-

Select List of 2014(Against vacancies arisen between 1.1.2014 to 31.12. 2014)

S.No.	Name of the Officer (S/Shri)	Date of Birth
1.*	Dhruba Charan Panchabhaya	19.07.1956
2.#	Susil Kumar Das No. 3	10.01.1957
3.	Dasarathi Satpathy	03.01.1962
4.	Pratap Chandra Dash -1	22.01.1960
5.	Prafulla Chandra Pradhan-2	04.07.1961
6.	Nirmal Chandra Mishra	05.07.1960
7.	Madhusudan Mishra-1	27.01.1960
8.	Anjan Kumar Manik	02.05.1961
9.*	Bijay Chandra Mahapatra	17.01.1960
10.#	Manmohan Mishra-No.2	08.11.1960
11.	Benudhar Behera	03.06.1962
12.	Partha Sarathi Mishra	21.06.1962
13.	Lagnajit Ray	13.08.1962
14.	Rabindra Kumar Mishra	17.06.1961
15.	Bibhuti Bhusan Patnaik	30.07.1960
16.	Dr. Tribikram Pradhan	23.04.1960
17.	Premananda Khuntia	02.05.1962

* The names at S. No. 1 and Sl. No. 9 have been included in the list provisionally subject to clearance in the disciplinary proceeding and criminal proceedings pending against them.

The names at S. No. 2 and Sl. No. 10 have been included in the list provisionally subject to clearance in the criminal proceedings pending against them.

PANKAJ GANGWAR, Under Secy.

No. 14015/17/2015-AIS (I)-B—In compliance with the order dated 09.09.2016 passed by Hon'ble CAT, Cuttak Bench, Cuttak in O. A. Nos.260/00205, 00388 & 00389 of 2016 and in supersession of this Department's notification of even number dated 09.10.2015 and also in exercise of the powers conferred by Rule 8(1) of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954 read with Regulation 9(1) of the Indian Administrative Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955 and Rule 3 of the Indian Administrative Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to re-appoint/appoint the following members of the State Civil Service of Odisha to the Indian Administrative Service against the vacancies determined by Government of India under Regulation 5(1) of the said Regulations in consultation with the State Government for the Select List of 2014, on probation until further orders and to allocate them to the Odisha Cadre, under Rule 5(1) of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954:-

Select List of 2014 (Against vacancies arisen between 1.1.2014 to 31.12. 2014)

S.No.	Name of the Officer (S/Shri)	Date of Birth
1.	Dasarathi Satpathy	03.01.1962
2.	Pratap Chandra Dash -1	22.01.1960
3.	Prafulla Chandra Pradhan-2	04.07.1961

S.No.	Name of the Officer (S/Shri)	Date of Birth
4.	Nirmal Chandra Mishra	05.07.1960
5.	Madhusudan Mishra-1	27.01.1960
6.	Anjan Kumar Manik	02.05.1961
7.	Benudhar Behera	03.06.1962
8.	Partha Sarathi Mishra	21.06.1962
9.	Lagnajit Ray	13.08.1962
10.	Rabindra Kumar Mishra	17.06.1961
11.	Bibhuti Bhusan Patnaik	30.07.1960
12.	Dr. Tribikram Pradhan	23.04.1960
13.	Premananda Khuntia	02.05.1962

PANKAJ GANGWAR, Under Secy.

The 12th April 2017

No. 14015/14/2017-AIS (I)-A—In exercise of powers conferred by Rule 8(1) of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954, read with Regulation 9(1) of the Indian Administrative Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, the President is pleased to notify the Select List of State Civil Service officers of Maharashtra containing the following names prepared on 29.03.2017 under Regulation 5(5) and approved on 07.04.2017, under Regulation 7(2) towards filling up promotion quota vacancies in Maharashtra cadre of IAS under State Civil Service category determined by the Government of India under Regulation 5(1) of the said Regulations in consultation with the State Government for the Select List of 2016 :—

Select List 2016 (Against vacancies arisen between 1.1.2016 to 31.12. 2016)

S. No.	Name of the Officer (S/Shri)	Date of Birth
1.	V.V. Mane	13.04.1964
2.	M.M. Suryawanshi	07.03.1966
3.	R. H. Thakare	20.03.1965
4.	J.S. Papalkar	29.12.1966
5.	S.D. Mandhare	21.05.1971
6.	S.G. Kolte	27.10.1967
7.	R.D. Nivatkar	22.06.1965
8.	A.K. Dhakane	15.07.1970
9.	A. A. Gulhane	14.11.1964
10.	K. V. Jadhav	02.05.1964
11.	G. M. Bodke	04.03.1965
12. @	A. W. Kakade	03.07.1967
13.	C. K. Dange	29.12.1968

@ The name at S. No. 12 has been included in the List provisionally subject to grant of integrity certificate by the State Government.

PANKAJ GANGWAR, Under Secy.

No.14015/14/2017-AIS(I)-B—In exercise of the powers conferred by Rule 8(1) of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954 read with Regulation 9(1) of the Indian Administrative Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955 and Rule 3 of the Indian Administrative Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to appoint the following members of the State Civil Service of Maharashtra to the Indian Administrative Service against the vacancies determined by Government of India under Regulation 5(1) of the said Regulations in consultation with the State Government for the Select List of 2016, on probation until further orders and to allocate them to the Maharashtra Cadre, under Rule 5(1) of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954 :—

Select List 2016(Against vacancies arisen between 1.1.2016 to 31.12. 2016)

S.No.	Name of the Officer (S/Shri)	Date of Birth
1.	V.V. Mane	13.04.1964
2.	M.M. Suryawanshi	07.03.1966
3.	R. H. Thakare	20.03.1965
4.	J.S. Papalkar	29.12.1966
5.	S.D. Mandhare	21.05.1971
6.	S.G. Kolte	27.10.1967
7.	R.D. Nivatkar	22.06.1965
8.	A.K. Dhakane	15.07.1970
9.	A. A. Gulhane	14.11.1964
10.	K. V. Jadhav	02.05.1964
11.	G. M. Bodke	04.03.1965
12.	C. K. Dange	29.12.1968

PANKAJ GANGWAR, Under Secy.

New Delhi, the 1st May 2017

No.14012/01/2014 - AIS-III—In exercise of the powers conferred by rule 3-A of the Indian Administrative Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to confirm Shri B. Vijay Datta, Member of the Indian Administrative Service of Madhya Pradesh Cadre of 2011 batch, in the Indian Administrative Service, with effect from 29.08.2013.

RAJESH KUMAR YADAV, Under Secy.

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

New Delhi, the 1st March 2017

No. 02/PB-III/2017—On attaining the age of superannuation, Mr. Raveendran G., an officer of Principal Private Secretary Grade of the Stenographers' Cadre of Indian Foreign Service (B) retired from Government Service in the afternoon of 28.02.2017.

BHUPAL SINGH, Administrative Officer (PB-III)

The 19th April 2017

No. 03/PB-III/2017—Mr. K. S. Marwah (DOB : 05.04.1959) an officer of Principal Private Secretary Grade of the Stenographers' Cadre of Indian Foreign Service (B) retired from Government Service after taking voluntary retirement w.e.f. the afternoon of 05.04.2017.

BHUPAL SINGH, Administrative Officer (PB-III)

New Delhi, the 1st May 2017

No. 04/PB-III/2017—On attaining the age of superannuation, Mrs. Saroj Arora, an officer of Principal Private Secretary Grade of the Stenographers' Cadre of Indian Foreign Service (B) retired from Government Service in the afternoon of 30.04.2017.

POONAM GUPTA, Administrative Officer (PB-III)

MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY
(DEPARTMENT OF COMMERCE)

New Delhi, the 17th April 2017

No. A-1/4/2011-SEZ (Vol.II)—The President is pleased to appoint following Indian Revenue Service Officers on deputation basis for a period of 3 years as Deputy Commissioner (Customs) (Group 'A') in the Pay Band-3 (Rs. 15600-39100) plus Grade Pay of Rs. 6600/- (Pre-revised) in the Special Economic Zones under the Department of Commerce as mentioned in Column No. 3 with effect from the date mentioned in Column No. 4 of the table below :—

Sl. No.	Name of the Officer	Name of Zonal SEZ	Date of assumption of Charge
1	2	3	4
1.	Shri Anish Muraleedharan, IRS (C&CE-2008)	Cochin SEZ, Kochi	20.03.2017
2.	Ms. R.Gulzar Begum, IRS (C&CE-2009)	MEPZ SEZ, Chennai	30.01.2017
3.	Shri Salik Parwaiz, IRS (C&CE-2009)	Noida SEZ, Noida	23.01.2017

G. SRINIVASAN, Under Secy.

MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES

New Delhi-110049, the 28th April 2017

No. A-42011/3/2009-Estt.—Consequent upon his promotion to Deputy Industrial Adviser (Industrial Advice) on regular basis, the President is pleased to appoint Shri Surendra Singh, a regular Assistant Industrial Adviser (Industrial Adviser) as Deputy Industrial Adviser (Industrial Advice) on regular basis of this Ministry in the Pay Band of Rs. 15600-39100/- (PB-3) with grade pay of Rs. 6600/- (i.e. Level 11 of Pay Matrix as per 7th CPC) w.e.f. 01.05.2017 (FN) or from the date of assumption of post whichever is later.

2. Shri Surendra Singh has assumed the charge of the post of Deputy Industrial Adviser (Industrial Advice) in the Ministry of Food Processing Industries w.e.f. 01.05.2017 (F/N).

TUAL ZA KAM, Under Secy.

MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
(DEPARTMENT OF SCIENTIFIC AND INDUSTRIAL RESEARCH)

New Delhi, the 28th April, 2017

No. A-38011/19/2017-Estt.—The President is pleased to retire Ms. Grace Toppo, Section Officer, Department of Scientific and Industrial Research from Govt. service on 30th April, 2017(AN) on attaining the age of superannuation.

KULDIP KUMAR, Under Secy.

MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE
(DEPARTMENT OF HEALTH & FAMILY WELFARE)

New Delhi, the 29th August 2016

No. A-19012/4/2016-E.I.—The President is pleased to appoint Shri Lav Agarwal, IAS (AP:1996) as Joint Secretary in the Department of Health and Family Welfare in the Pay Band of Rs. 37400-67000/- (PB-4) plus grade pay of Rs.10,000/- w.e.f. 29th August 2016 (FN) for a period of five years or until further orders, whichever is earlier.

A. K. SINGH, Under Secy.

The 30th September 2016

No. A-19014/13/2016-E.I.—Consequent upon his promotion to Grade-I (Under Secretary) of CSS on ad hoc basis vide Department of Personnel and Training's Order No. 5/7/2016-CS.I(U) dated 28th September, 2016, Shri Ajaya Kumar K. P., Section Officer (CSL No. 9225) of CSS is hereby appointed to Grade-I (Under Secretary) of CSS in the Ministry of Health and Family Welfare on ad hoc basis, with effect from the afternoon of 30.09.2016, for a period up to 30.06.2017 or till the posts are filled up on regular basis, or until further orders, whichever is earlier.

2. The ad hoc promotion of the officer is subject to terms and conditions, stipulated in the DoPT's Order referred above.

A. K. SINGH, Under Secy.

The 17th October 2016

No. A-19011/1/2016—The President is pleased to appoint Shri Sanjeeva Kumar, IAS (AM:1986) as Additional Secretary in the Department of Health and Family Welfare in the Pay Level – 15 (Pre-revised Scale of Rs. 67000 – 79000/-) w.e.f. 17th October 2016 (FN) until further orders.

A. K. SINGH, Under Secy.

The 8th November 2016

No. A-11013/03/2016-Estt. I—The President is pleased to appoint Shri Sampat Das Dandekar, PA, Department of Posts, as 1st Personal Assistant to the Hon'ble Minister of State for Health and Family Welfare (Shri Faggan Singh Kulaste) in Level 8 of the pay matrix [Rs. 47600-151100/-] w.e.f. 03rd November, 2016 (AN).

2. Appointment of Shri Sampat Das Dandekar will be on co-terminus basis or till the Minister requires his services or until further order, whichever event takes place earlier.

A. K. SINGH, Under Secy.

The 1st December 2016

No. A-38013/10/2016-Estt.I—On attaining the age of superannuation, Shri K. Vijaykumar, Section Officer in the Department of Health & Family Welfare has retired from Government service with effect from the afternoon of 30.11.2016.

A. K. SINGH, Under Secy.

No. A-38013/11/2016-Estt.I—On attaining the age of superannuation, Smt. Suneeti Sharma, Section Officer in the Department of Health & Family Welfare has retired from Government service with effect from the afternoon of 30.11.2016.

A. K. SINGH, Under Secy.

The 14th December 2016

No. A-19011/2/2016-E.I—The President is pleased to appoint Dr. R.K.Vats, IAS (WB:1986) as Additional Secretary in the Department of Health and Family Welfare in the Pay Level – 15 (Pre-revised Scale of Rs. 67000–79000/-) w.e.f. 14th December 2016 (FN) until further orders.

A. K. SINGH, Under Secy.

The 21st February 2017

No. A-19014/01/2017-Estt. I—The President is pleased to appoint Ms. Pratima Singh, IRS (C&CE:2009), Deputy Commissioner of Central Excise, Raipur, Chattisgarh, as Additional Private Secretary to Hon'ble Minister of State for Health and Family Welfare (Ms. Anupriya Patel) in Level 11 (67,700-2,08,700/-), with effect from the afternoon of 15.02.2017.

2. Appointment of Ms. Pratima Singh will be on co-terminus basis or till the Minister requires her services or until further order, whichever event takes place earlier.

A. K. SINGH, Under Secy.

New Delhi, the 28th April 2017

No. A-12025/29/2015-CHS–IV—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Narayanan Rajaram to the post of Specialist Grade-III (Anaesthesia) in the Non-Teaching Specialist sub-cadre of Central Health Service w.e.f. the forenoon of 23rd October, 2015 and until further orders.

LALIT KUMAR, Under Secy.

The 8th May 2017

No. A. 12025/32/2015-CHS.III—On the recommendation of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Neetu Sareen to the post of Assistant Professor of Obstetrics & Gynaecology in the Teaching Specialist Sub-cadre of Central Health Service, on probation, with effect from the forenoon of 03.09.2015 and until further orders.

LALIT KUMAR, Under Secy.

New Delhi-110 011, the 8th May 2017

No. A.12025/18/2014-CHS.I—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Toshik Gupta in the Medical Officers Grade of the Central Health Service in the scale of pay of PB-3 [Rs. 15600-39100/-] + Grade Pay Rs. 5400/- (pre-revised) in a temporary capacity with effect from the forenoon of 01st December, 2014 until further orders. Dr. Toshik Gupta is posted as Medical Officer under CGHS, Jaipur. He will be on probation for a period of two years from the date of his appointment.

D. D. MAHESHWARI, Under Secy.

MINISTRY OF AGRICULTURE & FARMERS WELFARE

(DEPARTMENT OF AGRICULTURE, COOPERATION & FARMERS WELFARE)

New Delhi, the 7th April 2017

No. A-19012/1/2017-EA.—Consequent upon his regular promotion to Senior Administrative Grade (SAG), vide Ministry of Statistics & Programme Implementation's Office Order No.12015/01/2017-ISS dated 28.2.2017, Shri P. Sangeeth Kumar, an officer of Indian Statistical Service is appointed as Adviser in Level 14 of Pay Matrix (revised) (pre-revised pay scale of Rs. 37,400-67,000/- with Grade Pay of Rs.10,000/-) in the Directorate of Economics & Statistics, Department of Agriculture, Cooperation & Farmers Welfare, w.e.f. 27.03.2017 (F.N.).

ABHIJIT CHAKRABORTY, Under Secy.

The 20th April 2017

No. A-19012/2/2017-EA.—Consequent upon his regular promotion to Senior Administrative Grade (SAG), vide Ministry of Statistics & Programme Implementation's Office Order No.12015/01/2017-ISS dated 28.2.2017, Shri P.R. Meshram, an officer of Indian Statistical Service is appointed as Adviser in Level 14 of Pay Matrix (revised) (pre-revised pay scale of Rs. 37,400-67,000/- with Grade Pay of Rs.10,000/-) in the Directorate of Economics & Statistics, Department of Agriculture, Cooperation & Farmers Welfare, w.e.f. 10.03.2017 (F.N.).

ABHIJIT CHAKRABORTY, Under Secy.

MINISTRY OF PANCHAYATI RAJ

New Delhi, the 8th May 2017

No. A-22012/6/2015-Estt.—In pursuance of Department of Economic Affairs's (IES Cadre Division) Order No. T-3/2017 issued under File No. 13016/4/2017-IES dated 31.3.2017, on completion of Probationary training, the President is pleased to appoint Shri Abhishek Meena, Officer-Trainee (IES:2015) as Assistant Director (JTS level) in the Ministry of Panchayati Raj in level 10 of Pay matrix (Rs. 56100-Rs. 177500/-) w.e.f. the forenoon of 3rd April, 2017.

HARKESH CHANDER, Under Secy.

MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS

New Delhi, the 12th April 2017

No.11036/02/2017-PC—In supersession of this Ministry's notifications No.11036/02/2017-PC dated 3rd March, 2017 and in terms of section 5 (1) and section 19 (1) of the Right to Information Act, 2005, the following officers of the Ministry

of Tribal Affairs are hereby designated as Central Public Information Officers (CPIOs) and Appellate Authorities (AAs), in respect of the specific subject matters mentioned against their names:—

S. No	Name of the Officer	Designation	Address/ Tel.	Subject Matter	Appellate Authority
1	Smt. H.T. Hilri	Scientist D (NIC)	Room No. 217, G-Wing, Shastri Bhawan New Delhi – 110115 Tel.No. 23387970	NIC related issues	Shri H.S.Hora Technical Director (NIC)
2	Shri Nadeem Ahmad	Under Secretary (TSP)	Room No. 217F, D-Wing, Shastri Bhawan New Delhi – 110115 Tel.No. 23073708	1. SCA to TSP 2. Inter- Ministerial TSP Coordination 3. Ashram Schools, Hostels & VTCs 4. NITI Aayog Matters	Shri Rajeev Prakash Director [ST Welfare Grants (SWG)]
3	Smt. Sunanda Sharma	Section Officer (IFD)	Room No. 217F, D-Wing, Shastri Bhawan New Delhi – 110115 Tel.No. 23387007	1. All matter pertaining to IFD 2. Budget 3. All Audit Paras	Shri Jeewan Kumar Under Secretary (IFD)
4	Shri Jossy Joseph	Section Officer (Estt)	Room No. 400, B Wing, Shastri Bhawan New Delhi-110115 Tel. No. 23387187	1. All Services, budgetary, account and matters pertaining to the Sectt. of the Ministry. 2. Vigilance matters 3. Multilateral bodies (UNDP, World Bank etc.)	Shri Ashgar Ali Under Secretary (GA/PC)
5	Shri Rajiv Kumar Singh	Section Officer (NGO)	Room No. 416, B-Wing, Shastri Bhawan New Delhi- 110115 Tel. No. 23386952	1. All matters pertaining to NGO	Ms. Reema Sharma Under Secretary (NGO)
6	Shri Rajiv Kumar Singh	Section Officer (PVTGs)	Room No. 416, B-Wing, Shastri Bhawan New Delhi- 110115 Tel. No. 23386952	1. All matters pertaining to PVTGs 2. All matters relating to A&N Islands, including Island Development project and other infrastructure projects. 3. Jarawa policy and Shompen Policy	Ms. Reema Sharma Under Secretary (PVTGs)
7	Shri Santosh Kumar	Section Officer (PC)	Room No. 217F, D Wing, Shastri Bhawan New Delhi – 110115 Tel. No. 23381903	1. Parliament matters 2. Coordination with all Divisions of the Ministry of Tribal Affairs 3. Coordination regarding Cabinet notes/ EFC/SFC memo recd. From other Departments/Ministries 4. E Office 5. E. Samiksha 6. Website of Ministry.	Shri Ashgar Ali Under Secretary (GA/PC)
8	Shri Santosh Kumar	Section Officer (General Admn) (Additional Charge)	Room No. 400, B Wing, Shastri Bhawan New Delhi – 110115 Tel. No. 23387469	1. All housekeeping matters pertaining to the secretariat of the Ministry. 2. IT Procurement of Hardware/Software etc. 3. Organizing various meetings	Shri Ashgar Ali Under Secretary (GA/PC)
9	Shri Shail Kumar	Section Officer (FRA)	Room No. 216J, D Wing, Shastri Bhawan New Delhi 110115	1. All matters pertaining to Forest Right Act, 2006 (FRA)	Shri K. Chandrasekhar Under Secretary (Livelihood / FRA)
10	Shri Praveen Pandit	Section Officer (Grants)	Room No. 217F, D Wing, Shastri Bhawan New Delhi – 110115 T.No.23381962	1. Article 275(1) Grants 2. Organizing and issuance of PAC meetings 3. EMRS relates issues	Shri P. K. Sahoo Under Secretary (Grants)
11	Shri S. Padmanabha	Section Officer (Scholarship / DBT)	Room No.416, B Wing, Shastri Bhawan New Delhi-110115 Tel. No. 23070508	1. Scholarship Schemes 2. DBT Cell of the Ministry	Shri M. K. Jha Under Secretary (Scholarship / DBT)
12	Shri Surinder Pal Sharma	Section Officer (Livelihood)	Room No. 217, D Wing, Shastri Bhawan New Delhi-110115 Tel. No. 23383461	1. Tribal Cooperative Marketing Development Federation of India Ltd (TRIFED) including administrative issues. 2. Minor Forest Produce (MFP) Marketing 3. Judicial Proceedings - Monitoring and coordination including LIMBS	Shri K. Chandrasekhar Under Secretary (Livelihood / FRA)

S. No	Name of the Officer	Designation	Address/ Tel.	Subject Matter	Appellate Authority
				4. Land and Rehabilitation & Resettlement (R&R) issues 5. National Scheduled Tribes Finance and Development Corporation (NSTFDC) relates issues including administrative issues 6. Skill Development matters & Coordination; National Resource Centre (Vanjeevan) 7. Health and AYUSH issues (including Sickle Cell Anemia) 8. Vanbandhu Kalyan Yojana (VKY)	
13	Shri D. N. Mandal	Deputy Director (Stats)	Room No. 239, August Kranti Bhawan Bhikaji Cama Place New Delhi-110066 Tel No. 26182153	1. Tribal Statistics 2. MOTA Annual Reports 3. Evaluation of Tribal Development Programmes 4. Women and Child issues 5. Science & Technology in Tribal Development	Smt. C.H. Honey Director (Stats)
14	Shri Biswa Bihari Panigrahi	Deputy Director (Policy Analysis)	Room No. 61, August Kranti Bhawan, Bhikaji Cama Place New Delhi- 110066 Tel No. 26182823	1. National Tribal Policy 2. Tribal Research Institutes (TRIs) 3. Matter relating to Finance Commission, High level and other Committees for Tribal development.	Shri V. Ashok Director (PA)
15	Shri Ramesh Kumar Verma	Research Officer (NCST/R&M)	Room No. 341, August Kranti Bhawan, Bhikaji Cama Place New Delhi-110066 Tel.No.26182153	1. National Commission for Scheduled Tribes (NCST) (incl. Admn. & Reports) 2. All matter pertaining to Atrocities on ST and Regulation. 3. Research & Media (including Tribal Carnival)	Shri Vijay Kumar Under Secretary (NCST/R&M)
16	Shri Dharam Bir Kumar Singh	Section Officer (Grievances) (Additional charge)	Room No. 281, August Kranti Bhawan, Bhikaji Cama Place New Delhi-110066 Tel. No. 26182428	1. Public Grievances 2. Result Framework Document (RFD)/Citizens' Charter	Shri Gopal Sadhawani Director (CLM/Grievance)
17	Shri Dharam Bir Kumar Singh	Section Officer (CLM)	Room No. 279, August Kranti Bhawan, Bhikaji Cama Place New Delhi-110066 Tel. No. 26182428	1. Legal and Constitutional matters 2. Scheduling /rescheduling of list of STs 3. All Schedule V Areas, including Governors' Report and Tribal Advisory Councils (TACs). 4. ITDP/ITDA, MADA, Cluster 5. PRI/PESA	Shri Uttam Kumar Kar Under Secretary (CLM)

ASGHAR ALI, Under Secy.

MINISTRY OF RAILWAYS

(RAILWAY BOARD)

New Delhi, the 3rd May 2017

No. 2007/E(GR)/I/32/1—The President is pleased to appoint the following probationers in the Indian Railway Personnel Service on the basis of CSE Exam 2006 Batch with effect from the date noted against each :—

S.No.	Name (S/Sh. /Ms.)	Date of joining
1	MATHIVANAN S A	14.12.2007
2	BEER SINGH (Since resigned)	10.12.2007
3	YOGESH KUMAR (Since resigned)	10.12.2007
4	AJAY KUMAR DIXIT (PH)	25.08.2008
5	RANJAN KUMAR MOHANTY	30.05.2011

S.No.	Name (S/Sh. /Ms.)	Date of joining
6	MANOJ KUMAR PANDEY	30.05.2011
7	SIDDU RAMANA REDDY	21.06.2011

SHEBA BRITTAS, Dy. Director/Estt. (GR)

No. 2007/E(GR)I/33/1—The President is pleased to appoint the following probationers in the Railway Protection Force on the basis of CSE Exam 2006 Batch with effect from the date noted against each :—

S.No.	Name (S/Sh. /Ms.)	Date of joining
1	Ms. BUDDHI DUBEY (Provisional)	30.05.2011
2	CHANDRA MOHAN MISHRA (Provisional)	30.05.2011

SHEBA BRITTAS, Dy. Director/Estt. (GR)

मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद में
अपलोड एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा ई-प्रकाशित, 2017

UPLOADED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS, N.I.T.
FARIDABAD AND E-PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2017

www.dop.nic.in